



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21042025-262568
CG-DL-E-21042025-262568

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 195]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 17, 2025/चैत्र 27, 1947

No. 195]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 17, 2025/CHAITRA 27, 1947

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2025

सा.का.नि. 234(अ).—भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन दिनांक 28 जून 2023 को का.आ. 2825(अ) द्वारा कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना, 2023 को अधिसूचित किया है, जो भारतीय कार्बन बाजार अवसंरचना को परिभाषित करता है, जहां ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को घटाने, हटाने या परिहार के लिए कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों के व्यापार के लिए एक बाजार अवसंरचना स्थापित की जाती है।

उक्त योजना के अनुपालन तंत्र के अधीन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा बाध्यकारी संस्थाओं के लिए ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन की तीव्रता (जीईआई) लक्ष्यों को अधिसूचित किया जाना है।

अतः अब, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने इससे प्रभावित होने वाले लोगों की जानकारी के लिए प्रारूप अधिसूचना जारी करने के लिए प्रस्तावित किया है और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त अधिसूचना पर आधिकारिक राजपत्र में प्रारूप के प्रकाशन की तारीख से साठ (60) दिन की अवधि समाप्त होने पर या उसके पश्चात विचार किया जाएगा;

आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली - 110003 को संबोधित किए जा सकते हैं और ccts.hsm-moefcc@gov.in ई-मेल आईडी पर भेजे जा सकते हैं।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन लक्ष्यों का नाम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम, 2025 है।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ - (1) इस अवसंरचना में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू होंगी -

- (क) "बैंकड" से संबंधित अनुपालन वर्ष के लिए अनुपालन पूरा होने के बाद किसी बाध्यकारी इकाई के पास शेष कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों की संख्या अभिप्रेत है।
- (ख) "ब्यूरो" का तात्पर्य ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 2(घ) में परिभाषित ऊर्जा दक्षता ब्यूरो से है।
- (ग) "अनुपालन वर्ष" से वह वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है जिस तक कोई बाध्यकारी इकाई अपने जीईआई लक्ष्य को पूरा करेगी।
- (घ) 'विस्तृत प्रक्रिया' से वही अर्थ अभिप्रेत है जो कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना, 2023 में पैरा 12 के उप-पैरा (2) में का.आ. 2825 (अ) दिनांक 28 जून, 2023 द्वारा विनिर्दिष्ट है।
- (ङ) "जीईआई" से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन तीव्रता tCO₂e/समकक्ष उत्पादन या उत्पाद अभिप्रेत है।

(2) यहां प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां, जो परिभाषित नहीं हैं, लेकिन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29), ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52), विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) और कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना, 2023 में परिभाषित हैं, उनके अर्थ क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों और योजना में दिए गए हैं।

3. उद्देश्य) -1) इन नियमों के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- (क) ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी या हटाने या परिहार के माध्यम से जीईआई को कम करके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की प्राप्ति में सहयोग करना।
- (ख) जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पारंपरिक रूप से उच्च उत्सर्जन वाले उद्योगों में टिकाऊ अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देना।

4. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (GEI)लक्ष्य -

- (1) जीईआई लक्ष्यों की गणना ब्यूरो द्वारा प्रकाशित विस्तृत प्रक्रिया में वर्णित कार्यप्रणाली के अनुसार की जाएगी।
- (2) निर्दिष्ट प्रक्षेपवक्र अवधि के लिए जीईआई लक्ष्य इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुबंध में दी गई अनुसूची के अनुसार होंगे।
- (3) अनुसूची के स्तंभ (2) में उल्लिखित प्रत्येक बाध्यकारी इकाई के संबंध में, जीईआई लक्ष्य, उनकी आधारभूत जीईआई के संबंध में, उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में उल्लिखित अनुपालन वर्षों की संख्या के लिए उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) में उल्लिखित के अनुसार होंगे।

5. बाध्यकारी इकाई(ओं) के दायित्व - (1) बाध्यकारी इकाई,-

- (क) कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना के पैरा 11 के उप-पैरा (4) के अनुसार अनुसूची में दिए गए संबंधित अनुपालन वर्ष में जीईआई लक्ष्यों को प्राप्त करेगी।
- (ख) निर्धारित जीईआई लक्ष्य प्राप्त न करने की स्थिति में, भारतीय कार्बन बाजार से कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र खरीदकर संबंधित अनुपालन वर्ष के लिए अपने जीईआई लक्ष्य को पूरा करेगी।
- (ग) संबंधित अनुपालन वर्ष में जीईआई लक्ष्य के अनुपालन के लिए कमी के बराबर बैंकड किए गए कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र या चालू अनुपालन वर्ष में खरीदे गए कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगी।
- (घ) ब्यूरो द्वारा प्रकाशित विस्तृत प्रक्रिया में निर्धारित समय-सीमा के भीतर तथा निर्धारित तरीके से भारतीय कार्बन बाजार (आईसीएम) पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।

(ड) ब्यूरो द्वारा प्रकाशित विस्तृत प्रक्रिया में निर्धारित समय-सीमा के भीतर तथा निर्धारित तरीके से सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। सभी प्रस्तुतियां भारतीय कार्बन बाजार (आईसीएम) पोर्टल के माध्यम से की जाएंगी।

(च) गैर-अनुपालन के मामले में, संबंधित अनुपालन वर्ष में कमी के विरुद्ध दंड अदा करना होगा।

6. कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्र जारी करना - (1) ब्यूरो कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना, 2023 के पैरा 5 के उप-पैरा 2(ग) के अनुसार कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(2) कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना, 2023 के पैरा 11 के उप-पैरा (6) के अनुसार बाध्यकारी इकाई को जारी किए जाने वाले कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्रों की संख्या निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निर्धारित की जाएगी:-

किसी भी अनुपालन वर्ष में जारी किए जाने वाले कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्रों की संख्या: (उस अनुपालन वर्ष के लिए जीईआई लक्ष्य - उस अनुपालन वर्ष में प्राप्त जीईआई) x उस अनुपालन वर्ष में उत्पादित समकक्ष उत्पाद की इकाई;

(3) कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना, 2023 के पैरा 11 के उप-पैरा (7) के अनुसार कमी को पूरा करने के लिए बाध्यकारी इकाई द्वारा खरीदे जाने वाले कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों की संख्या निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निर्धारित की जाएगी:-

किसी भी अनुपालन वर्ष में खरीदे जाने वाले कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों की संख्या: (उस अनुपालन वर्ष के लिए प्राप्त जीईआई - उस अनुपालन वर्ष में जीईआई लक्ष्य) x उस अनुपालन वर्ष में उत्पादित समकक्ष उत्पाद की इकाई;

(4) बाध्यकारी इकाई द्वारा किसी भी अनुपालन वर्ष में जारी या खरीदे गए कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों को ब्यूरो द्वारा प्रकाशित विस्तृत प्रक्रिया में निर्धारित तरीके से बैंकड किया जा सकता है।

7. पर्यावरण क्षतिपूर्ति - (1) यदि कोई बाध्यकारी इकाई जीईआई लक्ष्य का अनुपालन करने में विफल रहती है या अनुपालन के लिए कमी के समकक्ष कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहती है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) संबंधित अनुपालन वर्ष में कमी के लिए ऐसी बाध्यकारी इकाई पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाएगा जो उस अनुपालन वर्ष के व्यापार चक्र के दौरान कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्रों के व्यापार की औसत कीमत के दोगुने के बराबर होगी। औसत मूल्य ब्यूरो द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(2) पर्यावरण क्षतिपूर्ति ऐसे आरोपण के दिन से 90 दिनों के भीतर भुगतान की जाएगी।

(3) पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तहत एकत्रित निधि को एक अलग खाते में रखा जाएगा और भारतीय कार्बन बाजार के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति की सिफारिश और केंद्र सरकार के अनुवर्ती अनुमोदन पर कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा।

8. इन नियमों के प्रावधान का कोई भी उल्लंघन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अधीन निपटाया जाएगा।

अनुसूची

क्र. सं.	बाध्यकारी इकाई		मूल के समकक्ष प्रमुख उत्पाद आउटपुट 2023-24	मूल जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता 2023-24	जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य	
					(5)	
(1)	(2)		(3)	(4)	अनुपालन वर्ष 2025-26	अनुपालन वर्ष 2026-27
	नाम, पता और राज्य	पंजीकरण संख्या	(टन)	(tCO ₂ समकक्ष / समकक्ष उत्पाद का टन)	(tCO ₂ समकक्ष / समकक्ष उत्पाद का टन)	
					(क)	(ख)

क्षेत्र: एल्युमिनियम						
उप-क्षेत्र - स्मेल्टर						
1.	वेदांता लिमिटेड, झारसुगुडा, स्मेल्टर II, एसईजेड यूनिट, भुरखामुंडा, झारसुगुडा, ओडिशा-768202	ALMOE001OD	1238336	13.4927	13.2260	12.8259
2.	महान एल्युमीनियम प्लांट, बरगावा, सिंगरौली, मध्य प्रदेश-486886	ALMOE002MP	374049	15.6301	15.2722	14.7354
3.	भारत एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड, बाल्को नगर, कोरबा, छत्तीसगढ़-495684	ALMOE003CG	591844	15.7129	15.3512	14.8087
4.	आदित्य एल्युमीनियम, एट पोस्ट-लापंगा, संबलपुर, ओडिशा - 768212	ALMOE004OD	372000	16.7031	16.2944	15.6813
5.	वेदांता लिमिटेड, झारसुगुडा, भुरखामुंडा, झारसुगुडा, ओडिशा-768202	ALMOE005OD	555854	17.0814	16.6539	16.0127
6.	नाल्को स्मेल्टर एंड पावर कॉम्प्लेक्स, अंगुल/नाल्कोनगर, अंगुल, ओडिशा-759145	ALMOE006OD	473457	17.3505	16.9094	16.2479
7.	हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हीराकुंड स्मेल्टर, हीराकुंड, संबलपुर, ओडिशा -768016	ALMOE007OD	178830	19.2759	18.7315	17.9150
8.	हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रेनुकूट, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश - 231217	ALMOE008UP	423704	20.5549	20.0780	19.3627
उप-क्षेत्र - रिफाइनरी						
9.	हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पोस्ट बैग-1, यमनपुर गांव के सामने, बेलगाम, कर्नाटक - 590010	ALMOE009KA	289121	0.5453	0.5335	0.5159
10.	उत्कल एल्युमिना इंटरनेशनल लिमिटेड, दोरागुडा, पोस्ट-कुचीपेदार, रायगडा, ओडिशा - 765015	ALMOE010OD	2445383	0.8361	0.8216	0.7998
11.	वेदांता लिमिटेड, लांजीगढ़, विश्वनाथपुर, कालाहांडी, ओडिशा -766027	ALMOE011OD	1813703	0.9354	0.9172	0.8899
12.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, माईस एंड रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स, दमनजोडी, कोरापुट, उड़ीसा -763008	ALMOE012OD	2095026	1.1875	1.1582	1.1142
13.	हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुरी वर्क्स, रांची, मुरी, रांची, झारखंड -835101	ALMOE013JH	372507	1.4439	-	1.3355

क्र. सं.	बाध्यकारी इकाई		मूल के समकक्ष प्रमुख उत्पाद आउटपुट 2023-24	मूल जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता 2023-24	जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य	
					(5)	
					अनुपालन वर्ष 2025-26	अनुपालन वर्ष 2026-27
(1)	(2)		(3)	(4)	(क)	(ख)
	नाम, पता और राज्य	पंजीकरण संख्या	(टन)	(tCO ₂ समकक्ष / समकक्ष उत्पाद का टन)	(tCO ₂ समकक्ष / समकक्ष उत्पाद का टन)	
क्षेत्र: सीमेंट						
उप-क्षेत्र – पोर्टलैंड पॉज़ोलाना सीमेंट						
1.	जेके सीमेंट, मुद्दपुर, जिला बागलकोट, कर्नाटक-587122	CMTOE001KA	3532948	0.4455	0.4417	0.4391
2.	डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड, बेलगाम, विलेज यदवाड, पीओ यदवाड, जिला बेलगाम, कर्नाटक-591136	CMTOE002KA	2629151	0.4894	0.4852	0.4824
3.	डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड, चिन्नाकोमेरला गांव, जिला कडप्पा, आंध्र प्रदेश-621651	CMTOE003AP	3166423	0.5173	0.5119	0.5083
4.	डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड, कल्याणपुर, बंजारी, रोहतास, बिहार-821303	CMTOE004BR	1133857	0.5094	-	0.4998
5.	श्री सीमेंट लिमिटेड, कोडला सीमेंट प्लांट, कोडला और बेनकानाहल्ली, सेदम, कर्नाटक-585222	CMTOE005KA	4286776	0.4936	0.4873	0.4831
6.	श्री सीमेंट लिमिटेड, रायपुर सीमेंट प्लांट, ग्राम खपराडिग, तहसील सिमगा, भाटापारा, बलौदा बाजार, रायपुर छत्तीसगढ़	CMTOE006CG	11435872	0.4694	0.4630	0.4586
7.	अमृत सीमेंट लिमिटेड, विलेज उमलापेर, पोस्ट ऑफिस खलीहरियात, जिला ईस्ट जैंतिया हिल्स, मेघालय, 793200	CMTOE007ML	955372	0.5325	0.5259	0.5214
8.	मंगलम सीमेंट लिमिटेड, कोटा, पीओ आदित्य नगर (मोरक) जिला कोटा, राजस्थान-326520	CMTOE008RJ	4266298	0.5138	0.5066	0.5018
9.	अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट लिमिटेड, सिरोही, तहसील पिंडवाड़ा जिला-सिरोही-307031, राजस्थान	CMTOE009RJ	7253059	0.5006	0.4933	0.4885

10.	तमिलनाडु सीमेंट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अरियालूर, गांव: कैरलाबाथ, अरियालूर, डाकघर: अरियालूर सीमेंट फैक्ट्री पोस्ट, तमिलनाडु-621729	CMTOE010TN	1527557	0.4797	0.4720	0.4669
11.	एनयू विस्टा लिमिटेड (इमामी सीमेंट लिमिटेड), गांव: रिस्दा, डाकघर: रिस्दा, जिला बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़-493332	CMTOE011CG	5723324	0.5089	0.5008	0.4954
12.	जेके सीमेंट लिमिटेड, निम्बाहेडा, कैलाश नगर-। निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान-312617	CMTOE012RJ	4378944	0.5030	0.4948	0.4894
13.	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड यूनिट - धार सीमेंट वर्क्स, टोंकी, मनावर, धार, मध्य प्रदेश-454446	CMTOE013MP	7872567	0.5350	-	0.5210
14.	डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड, थांगस्काई, लम्सनॉन्ग, ईस्ट जैतिया हिल्स, मेघालय-793210	CMTOE014ML	1446197	0.5764	0.5679	0.5623
15.	जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड, दुर्ग मालपुरी-खुर्द, खासडीह, तहसील-धमधा, अहिवारा, दुर्ग, छत्तीसगढ़, 490036	CMTOE015CG	3675964	0.5024	0.4939	0.4881
16.	उदयपुर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड, गांव: श्रीपति नगर, डबोक, जिला उदयपुर, राजस्थान- 313022	CMTOE016RJ	3506174	0.5334	0.5248	0.5190
17.	श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी लिमिटेड, जामनगर, पीओ। दिग्विजयग्राम, सिक्का जिला, गुजरात-361140	CMTOE017GJ	1709557	0.5304	0.5217	0.5158
18.	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (विक्रम सीमेंट वर्क्स), पीओ खोर-458470 जिला-नीमच, मध्य प्रदेश	CMTOE018MP	4978370	0.5437	0.5347	0.5287
19.	रिलायंस सीमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मैहर/भरौली, इटाहारा, सतना, मध्य प्रदेश-485773	CMTOE019MP	5390695	0.5885	0.5792	0.5730
20.	अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड (यूनिट: बागा सीमेंट वर्क्स) पीओ.- कंधार, द.- अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश-171102	CMTOE020HP	3935118	0.5427	0.5333	0.5270
21.	श्री सीमेंट लिमिटेड ब्यावर, बांगुर नगर, पोस्टबॉक्स नंबर 33, ब्यावर, जिला अजमेर, राजस्थान-305901	CMTOE021RJ	4334256	0.5212	0.5117	0.5053

22.	रेन सीमेंट लिमिटेड यूनिट-II, कुरनूल, श्रीपुरम, बोइंचर्चुपल्ली (वी), पीपुल्ली (एम), कुरनूल जिला-518220 आंध्र प्रदेश	CMTOE022AP	2324109	0.5688	0.5591	0.5526
23.	हिल्स सीमेंट कंपनी लिमिटेड, गांव: मिनक्री, 116 किमी स्टोना एनएच-44, खलीहरियाट पीओ, ईस्ट जैतिया हिल्स, मेघालय-793200	CMTOE023ML	688284	0.5851	-	0.5688
24.	एसीसी लिमिटेड (गगल सीमेंटवर्क्स-II), पीओ बरमाणा, जिला बिलासपुर, पिन - 174013, हिमाचल प्रदेश	CMTOE024HP	2295606	0.5401	0.5301	0.5235
25.	एसीसी लिमिटेड (गगल सीमेंटवर्क्स-I), पीओ बरमाणा, जिला बिलासपुर, पिन-174013, हिमाचल प्रदेश	CMTOE025HP	2036938	0.5351	0.5250	0.5183
26.	बालाजी सीमेंट वर्क्स, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, डाकघर: बुदावाड़ा, गांव: जगगय्यापेट मंडल, जिला कृष्णा, आंध्र प्रदेश-521175	CMTOE026AP	5447961	0.5586	0.5485	0.5418
27.	प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड, प्रिज्म सीमेंट वर्क्स, सतना, ग्राम मनकहारी तहसी, मध्य प्रदेश, 485111	CMTOE027MP	3249503	0.5676	0.5575	0.5507
28.	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (रेड्डीपालयम सीमेंट वर्क्स), पीओ रेड्डीपालयम जिला- अरियालूर-621704, तमिलनाडु	CMTOE028TN	1485350	0.5444	0.5342	0.5274
29.	सागर सीमेंट्स (आर) लिमिटेड, गाँव: गुडीपाडु गाँव, डाकघर: गुडीपाडु, जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश- 515408	CMTOE029AP	1407631	0.5832	0.5729	0.5661
30.	नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड (निम्बोल सीमेंट प्लांट-एनसीपी) गांव : निम्बोल, पोस्ट ऑफिस निम्बोल, जिला पाली, राजस्थान, 306308	CMTOE030RJ	2577580	0.5502	0.5399	0.5331
31.	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, आंध्र प्रदेश सीमेंट वर्क्स, भोगसमुद्रम (वी), ताड़ीपत्री, आंध्र प्रदेश-515415	CMTOE031AP	8710175	0.5623	0.5518	0.5448
32.	प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड, यूनिट-II, मनकहारी, बठिया, सतना, मध्य प्रदेश, 485111	CMTOE032MP	4781658	0.5667	0.5562	0.5491

33.	रेन सीमेंट लिमिटेड यूनिट 1, नलगोंडा, रामापुरम गांव मेलाचेरुवु मंडल नलगोंडा जिला, तेलंगाना-508246	CMTOE033TG	1302776	0.5877	0.5770	0.5699
34.	डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड, त्रिची, डालमियापुरम-621651 त्रिची जिला, तमिलनाडु	CMTOE034TN	3892366	0.5720	0.5612	0.5541
35.	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड यूनिट: दल्ला सीमेंट वर्क्स, एसएच 5 कोटा पीओ दल्ला जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश-231207	CMTOE035UP	3111156	0.5799	0.5685	0.5610
36.	अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, (भाटापारा सीमेंट वर्क्स), डाकघर रावन तहसील बलौदा बाजार जिला रायपुर, छत्तीसगढ़-493331	CMTOE036CG	6133197	0.5534	0.5420	0.5344
37.	डालमिया सीमेंट अरियालूर, पीओ ओटाकोविल, अरियालूर, तमिलनाडु-621705	CMTOE037TN	2863675	0.5946	0.5832	0.5756
38.	विडला कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सतना सीमेंट वर्क्स), पीओ विडला विकास, जिला-सतना, मध्य प्रदेश-485005	CMTOE038MP	4608658	0.5692	0.5578	0.5502
39.	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, हिरमी सीमेंट वर्क्स, पीओ हिरमी-493195 जिला. रायपुर, छत्तीसगढ़	CMTOE039CG	7605814	0.5651	0.5537	0.5461
40.	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (राजश्री सीमेंट वर्क्स), आदित्यनगर मालखेड रोड- 585292, जिला-गुलबर्गा, कर्नाटक	CMTOE040KA	10729705	0.5712	0.5598	0.5522
41.	नुवोको विस्टास कापोरेशन लिमिटेड (पूर्व में लाफार्ज इंडिया लिमिटेड) गोपालनगर, जिला-जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़-495663	CMTOE041CG	2104796	0.5438	0.5322	0.5245
42.	चंदेरिया सीमेंट लिमिटेड, चित्तौड़गढ़, सेक्टर - 3, माधव नगर, पीओ: सीमेंट फैक्ट्री, चंदेरिया-312021 जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान	CMTOE042RJ	4941023	0.5743	0.5626	0.5547
43.	एसीसी लिमिटेड (किमोर सीमेंट लिमिटेड), पीओ केमोर तहसील विजराघवेगढ़ जिला कटनी-483880, मध्य प्रदेश	CMTOE043MP	4675397	0.5548	0.5429	0.5350

44.	केसीपी लिमिटेड, रामकृष्णपुरम, मुक्त्याला गांव, जगग्यापेट मंडल, जिला कृष्णा, आंध्र प्रदेश-521457	CMTOE044AP	3382400	0.5918	0.5799	0.5720
45.	मेघालय सीमेंट्स लिमिटेड, थांगस्काई गांव पीओ लमशनॉंग जिला जयन्तिया हिल्स-793200, मेघालय	CMTOE045ML	1266649	0.5931	0.5811	0.5731
46.	ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड, देवापुर, जिला आदिलाबाद- 504218, तेलंगाना	CMTOE046TG	4015601	0.5871	0.5748	0.5667
47.	पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड नलगोंडा, विलेज गणेशपहाड़ पोस्ट:- वाडापल्ली, जिला. नलगोंडा, तेलंगाना- 508355	CMTOE047TG	752289	0.6053	0.5928	0.5845
48.	मानिकगढ़ सीमेंट वर्क्स II, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, गढ़चंद्र, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र-442908	CMTOE048MH	4770977	0.5873	0.5748	0.5664
49.	स्टार सीमेंट लिमिटेड (पहले सीमेंट मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), लुमशनॉंग, पोस्ट ऑफिस खलीहरियात जिला जैतिया हिल्स, मेघालय 793210	CMTOE049ML	1339254	0.5887	0.5762	0.5678
50.	पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अनंतपुर, तलारीचेरुवु मंडल अनंतपुर, आंध्र प्रदेश-515415	CMTOE050AP	697110	0.6088	0.5962	0.5878
51.	इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड, संकरी, पश्चिम, सेलम-637 303, तमिलनाडु	CMTOE051TN	831193	0.5570	0.5443	0.5359
52.	जुआरी सीमेंट लिमिटेड, सीतापुरम वर्क्स, डोंडापाडु, तेलंगाना	CMTOE052TG	927668	0.5831	0.5703	0.5618
53.	अंबुजा सीमेंट लिमिटेड राबरियावास, तह: जैतारण, जिला पाली-306709, राजस्थान	CMTOE053RJ	2229771	0.6244	0.6116	0.6030
54.	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड- सीधी सीमेंट वर्क्स, ग्राम-मझिगावां, डाकघर भरतपुर, तहसील-रामपुर नैकिन, जिला सीधी, मध्य प्रदेश-486776	CMTOE054MP	4473158	0.5815	0.5687	0.5601
55.	डेक्कन सीमेंट्स, भवानीपुरम, जनपद, जिला नलगोंडा, तेलंगाना-508218	CMTOE055TG	2116986	0.6027	0.5897	0.5811

56.	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, अवारपुर सीमेंट वर्क्स, ताल-कोरपना गांव- अवारपुर जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र-442917	CMTOE056MH	4895238	0.5963	0.5828	0.5738
57.	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, यूनिट: मैहर सीमेंट यूनिट-2', सतना, पोस्ट-सरलंगर मैहर जिला-सतना, मध्य प्रदेश-485772	CMTOE057MP	2425569	0.6047	0.5906	0.5811
58.	द इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड, डालावोई, सीमेंट नगर-621730, सेंदुरई (टीके), अरियालूर (डीटी), तमिलनाडु	CMTOE058TN	1688705	0.6229	0.6087	0.5992
59.	एसीसी लिमिटेड (वाडी सीमेंट वर्क्स), वाडी जिला-गुलबर्गा, कर्नाटक पिन:-585225	CMTOE059KA	6427775	0.6007	0.5865	0.5770
60.	द इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड, येरागुंटला, येरागुंटला वर्क्स, येरागुंटला-516309, आंध्र प्रदेश	CMTOE060AP	596503	0.5767	0.5622	0.5525
61.	चेट्टीनाड सीमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डिंडीगुल, रानी मेयम्मई नगर, करिकाली पोस्ट, गुज़िलियामपराई (वीआईए), डिंडीगुल जिला, पिन-624703, तमिलनाडु	CMTOE061TN	3800515	0.5936	0.5791	0.5694
62.	केसोराम सीमेंट (प्रो. केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड), बसंतनगर पीओ, जिला करीमनगर, तेलंगाना-505187	CMTOE062TG	1414107	0.6025	0.5877	0.5779
63.	एसीसी लिमिटेड (चंदा सीमेंट वर्क्स), पीओ सीमेंटनगर जिला चांदुरपुर 442502, महाराष्ट्र	CMTOE063MH	3454741	0.5967	0.5819	0.5720
64.	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, यूनिट: मैहर सीमेंट, सतना, पोस्ट-सरलंगर मैहर जिला- सतना, मध्य प्रदेश-485772	CMTOE064MP	2258496	0.6471	0.6319	0.6217
65.	रैमको सीमेंट्स लिमिटेड, गोविंदपुरम वर्क्स, अरियालूर, तमिलनाडु	CMTOE065TN	4145715	0.7084	0.6923	0.6816
66.	द रैमको सीमेंट्स लिमिटेड, रामासामी राजा नगर, विरुधुनगर जिला, तमिलनाडु-626204	CMTOE066TN	2540546	0.7152	0.6987	0.6876
67.	चेट्टीनाड सीमेंट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, पुलियूर-वर्क्स, तमिलनाडु	CMTOE067TN	419412	0.6267	0.6099	0.5986

68.	रैमको सीमेंट लिमिटेड (अलाथियुर वर्क), अलाथियुर वर्क, सीमेंट नगर, सेंदुरई तालुक, अरियालूर, पांडिचेरी, चेन्नई-621730, तमिलनाडु	CMTOE068TN	2916588	0.7058	0.6888	0.6775
69.	इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड, शंकरनगर, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु-627 357	CMTOE069TN	964184	0.6336	0.6162	0.6046
70.	अंबुजा सीमेंट लिमिटेड (मराठा सीमेंट वर्क्स), गांव: उप्परवाही, तालुका: कोरपना, जिला चंद्रपुर-442908, महाराष्ट्र	CMTOE070MH	3917932	0.5938	0.5761	0.5643
71.	गोल्डस्टोन सीमेंट्स लिमिटेड, गांव: मुशियांग लामारे (पुराना), डाकघर: खलीहरियात, जिला ईस्ट जैंतिया हिल, मेघालय-793200	CMTOE071ML	923349	0.6516	0.6336	0.6216
72.	मालाबार सीमेंट लिमिटेड पालक्काड, बालयार, पालक्काड, केरल-678624, केरल	CMTOE072KL	408107	0.6809	0.6608	0.6474
73.	केजेएस सीमेंट (आई) लिमिटेड, कार्य: - एनएच-7, राज नगर, रीवा रोड, ग्राम-अमिलिया, डाकघर: मैहर, जिला सतना, मध्य प्रदेश-485771	CMTOE073MP	2867679	0.7117	0.6867	0.6700
74.	डीसीएम श्रीराम कंसोलिडेटेड लिमिटेड, कोटा, श्रीराम नगर जिला कोटा, राजस्थान-324004	CMTOE074RJ	453502	0.7105	0.6821	0.6632
उप क्षेत्र - साधारण पोर्टलैंड सीमेंट						
75.	श्री जया जोशी सीमेंट, यानकंदला गांव, बनगनपल्ली (मंडल) कुरनूल, आंध्र प्रदेश-518124	CMTOE075AP	1964528	0.7449	0.7355	0.7292
76.	जेके सीमेंट वर्क्स मंगरोल (जेके सीमेंट लिमिटेड की एक इकाई), कैलाश नगर, निम्बाहेडा-312617, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान	CMTOE076RJ	5677845	0.7358	0.7254	0.7184
77.	भारती सीमेंट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, गांव: नल्लालिंगयापल्ली, डाकघर: कमलापुरम, जिला वाईएसआर कडपा. आंध्र प्रदेश-516289	CMTOE077AP	3666167	0.7696	0.7590	0.7519
78.	ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड, चित्तपुर, पीओ इटगा, जिला कलबुर्गी, कर्नाटक-585211	CMTOE078KA	2397993	0.7713	0.7598	0.7521

79.	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (आदित्य सीमेंट वर्क्स), आदित्यपुरम सावा-शंभूपुरा रोड जिला चित्तौड़गढ़-312613	CMTOE079CG	7723705	0.7809	0.7685	0.7602
80.	जेएसडब्ल्यू सीमेंट, बिलाकलागुदुर गांव, पीओ गदिवेमुला मंडल, जिला कुरनूल, आंध्र प्रदेश-518508	CMTOE080AP	2558098	0.7689	0.7565	0.7482
81.	वंडर सीमेंट, आरके नगर, निम्बाहेडा, चित्तौड़गढ़ राजस्थान-516311	CMTOE081RJ	10585675	0.8051	0.7926	0.7842
82.	जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड, सिरोही, पो. जयकयपुरम जिला. सिरोही, राजस्थान-307019	CMTOE082RJ	5506560	0.7925	0.7791	0.7702
83.	परशक्ति सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गांव: जेटीपालेम, डाकघर: जेटीपालेम, जिला गुंटूर, आंध्र प्रदेश-522421	CMTOE083AP	1073920	0.7556	0.7420	0.7329
84.	श्री सीमेंट लिमिटेड रास, बांगुर सिटी आरएएस, तहसील जैतारण-306107, जिला पाली, राजस्थान	CMTOE084RJ	12716265	0.7914	0.7778	0.7687
85.	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (कोटपुतली सीमेंट वर्क्स), वी एंड पीओ मोहनपुरा, तहसील: कोटपुतली जिला जयपुर, पिन-303108, राजस्थान,	CMTOE085RJ	3666138	0.8086	0.7950	0.7859
86.	जुआरी सीमेंट, येरागुंटला, पीओ कृष्णानगर, जिला वाईएसआर कडप्पा, आंध्र प्रदेश-516311	CMTOE086AP	3331231	0.8075	0.7933	0.7838
87.	अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड (नर्मदा सीमेंट), पीबीएनओ10, बाबरकोट गांव, पिनकोड: 365540, जिला अमरेली, गुजरात	CMTOE087GJ	1400465	0.7992	0.7845	0.7747
88.	श्री चक्र सीमेंट लिमिटेड। गाँव: श्रीनरसिम्हपुरी, करेमपुडी, गुंटूर जिला, डाकघर: करमपुडी आंध्र प्रदेश-522614	CMTOE088AP	498960	0.8198	0.8048	0.7948
89.	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (गुजरात सीमेंट लिमिटेड), गांव: कोवाया, तालुका: राजुला सिटी, जिला अमरेली-365541, गुजरात	CMTOE089GJ	4650295	0.8255	0.8103	0.8001
90.	केसीपी लिमिटेड, सीमेंट यूनिट- 1 माचेरला, माचेरला-522426, जिला गुंटूर, आंध्र प्रदेश	CMTOE090AP	536488	0.8466	0.8312	0.8210

91.	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड - बेला सीमेंट वर्क्स पो. जेपीनगर जिला. रीवा, मध्य प्रदेश-486450	CMTOE091MP	1917350	0.8351	0.8196	0.8093
92.	वासवदत्ता सीमेंट, गुलबर्गा, सेदाम- 585222 गुलबर्गा जिला , कर्नाटक	CMTOE092KA	5422767	0.8391	0.8232	0.8127
93.	चेट्टीनाड सीमेंट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, कल्लूर वर्क्स, कल्लूर- संगम-के, गारगापल्ली, गुलबर्गा -585305, गुलबर्गा डीटी, कर्नाटक	CMTOE093KA	2039429	0.8277	0.8116	0.8008
94.	सागर सीमेंट्स, लिमिटेड, मातमपल्ली (वी एंड एम), सूर्यपिट जिला, तेलंगाना- 508204	CMTOE094TG	2217633	0.8430	0.8268	0.8160
95.	माई होम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नलगोंडा, मेल्लाचेरुवु-508246 नलगोंडा जिला, तेलंगाना	CMTOE095TG	3125768	0.8332	0.8170	0.8062
96.	कलबुर्गी सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, गांव: छत्रसाल, डाकघर: चिंकचोली तालुक, जिले: कलबुर्गी, कर्नाटक-585320	CMTOE096KA	2902593	0.8491	0.8327	0.8217
97.	द इंडिया सीमेंट लिमिटेड, मलकापुर वर्क्स, एसवाई नंबर- 51, मलकापुर गांव मलकापुर, पोस्ट- तंदूर, रंगारेड्डी जिला - 501157, तेलंगाना	CMTOE097TG	1559199	0.7935	0.7770	0.7660
98.	द इंडिया सीमेंट लिमिटेड, चिलमकुर, चिलमकुर पोस्ट, कडप्पा जिला-516310, आंध्र प्रदेश	CMTOE098AP	1293703	0.8238	0.8068	0.7954
99.	पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बोयारेड्डीपल्ली, बोयारेड्डीपल्ली, यादिक्री मंडल, अनंतपुर जिला, पिनकोड- 515408, आंध्र प्रदेश	CMTOE099AP	854483	0.8626	0.8455	0.8342
100.	सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड, यूनिट- सिधीग्राम, गुजरात, जूनागढ़, सिधीग्राम वेरावल-कोडिनार हाइवे जिला गिर सोमनाथ, गुजरात-362275	CMTOE100GJ	1409441	0.8608	0.8435	0.8320
101.	नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूर्व में लाफार्ज इंडिया लिमिटेड) चित्तौड़ सीमेंट वर्क्स, भावलिया, चित्तौड़गढ़, राजस्थान-321620	CMTOE101RJ	2329730	0.8558	0.8385	0.8269

102.	एनसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सिंहपुरी, मद्रासपल्ली, जिला सूर्यपेट, तेलंगाना,	CMTOE102TG	2405161	0.8596	0.8421	0.8305
103.	रैमको सीमेंट्स लिमिटेड, कुमारसामी राजा नगर, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश, 521457	CMTOE103AP	4439110	0.8698	0.8522	0.8404
104.	कीर्ति इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेलाचेरुवु, सूर्यपेट तेलंगाना- 508246	CMTOE104TG	404478	0.8778	-	0.8482
105.	भव्या सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, पीओ तांगेडा, जिला गुंटूर, आंध्र प्रदेश-522414	CMTOE105AP	611663	0.8558	0.8377	0.8256
106.	अल्ट्राटेक सेवाग्राम, डाकघर वायोर, जिला कच्छ (भुज) गुजरात-370511	CMTOE106GJ	2030379	0.8408	0.8225	0.8103
107.	पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बेल्कातुर, तंदूर, विकाराबाद, तेलंगाना-501158	CMTOE107TG	499755	0.8560	0.8373	0.8249
108.	द इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड, विष्णुपुरम, विष्णुपुरम, वाडापल्ली पोस्ट, जिला- नलगोंडा -508355, तेलंगाना	CMTOE108TG	1098257	0.8532	0.8332	0.8198
109.	नुवोको विस्तास कापॉरिशन लिमिटेड (पूर्व में लाफार्ज इंडिया लिमिटेड) (सोनाडीह सीमेंट प्लांट), पीओ - रसेडा, वाया - बलौदाबाजार, जिला - रायपुर, पिन - 493332, छत्तीसगढ़	CMTOE109CG	3057103	0.8696	0.8489	0.8351
110.	अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट लिमिटेड अंजनीपुरम, जिला नलगोंडा, तेलंगाना- 508246	CMTOE110TG	792958	0.8931	0.8716	0.8574
111.	अंबुजा सीमेंट लिमिटेड अंबुजानगर, पीओ अंबुजानगर, ताल-कोडिनार, जिला-जूनागढ़, पिन-362715, गुजरात	CMTOE111GJ	3154665	0.9121	0.8890	0.8736
112.	चेट्टीनाड सीमेंट कापॉरिशन प्राइवेट लिमिटेड, अरियालूर वर्क्स, त्रिची मेन रोड, कीलापालुर, अरियालूर - 621707 तमिलनाडु	CMTOE112TN	1556219	0.9031	0.8800	0.8646
113.	ग्रीन वैली इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नॉग्सनिंग, चिह्नुफी, ईस्ट जैंतिया हिल्स, मेघालय-793210	CMTOE113ML	543540	1.0121	0.9888	0.9732
114.	अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, सुली , पीओ दाइलाघाट तहसील अर्की जिला सोलन-171102, हिमाचल प्रदेश	CMTOE114HP	3045481	0.7520	0.7279	0.7118

115.	सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड, राणावाव, रेलवे स्टेशन के पास, राणावाव - 360560, जिला - पोरबंदर, गुजरात	CMTOE115GJ	1478510	0.9258	0.9017	0.8856
116.	मानिकगढ़ सीमेंट वर्क्स, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, पोगाडचंदूर, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र-442908	CMTOE116MH	1329947	0.9754	0.9467	0.9275
117.	सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कच्छ, डाकघर संघीपुरम, टीए-अब्दासा जिला- कच्छ, गुजरात-370511	CMTOE117GJ	1541976	0.9707	0.9413	0.9217
118.	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तंदूर सीमेंट फैक्ट्री, करनकोट, रंगारेड्डी, तेलंगाना-501158	CMTOE118TG	594457	1.0803	1.0368	1.0079
119.	टाटा केमिकल्स लिमिटेड, मीठापुर, मीठापुर-361345, जिला जामनगर, गुजरात	CMTOE119GJ	319686	1.1058	1.0553	1.0216
उप-क्षेत्र - समग्र						
120.	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, रावन सीमेंट वर्क्स, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़-493196	CMTOE120CG	14635552	0.3191	0.3142	0.3110
121.	एसीसी लिमिटेड, (जामुल सीमेंट वर्क्स), पीओ जामुल सीमेंट वर्क्स जिला दुर्ग पिन-490024, छत्तीसगढ़	CMTOE121CG	8464317	0.3459	0.3402	0.3364
122.	डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड, राजगांगपुर, जिला सुंदरगढ़, पिन: 770017, ओडिशा	CMTOE122OD	7406765	0.5137	0.5027	0.4953
123.	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड यूनिट- बैकुंठ सीमेंट वर्क्स, बैकुंठ, जिला रायपुर- 493116, छत्तीसगढ़	CMTOE123CG	2609926	0.4244	0.4117	0.4033
124.	एसीसी लिमिटेड, (बारगढ़ सीमेंट वर्क्स), सीमेंट नगर, पीओ- बारडोल, जिला बरगढ़ - 768038, ओडिशा	CMTOE124OD	1208919	0.4893	0.4671	0.4523
उप-क्षेत्र - विलंकराइजेशन						
125.	स्टार सीमेंट मेघालय लिमिटेड, लम्सनॉन्ग, खलीहरियाट, जैन्तिया हिल्स, मेघालय-793210	CMTOE125ML	2044915	0.7748	0.7654	0.7592
126.	कैलकॉम सीमेंट इंडिया लिमिटेड, 16 किलो, उमरांगशु, जमुना नगर, दिमा हसाओ (एनसी हिल्स) असम-788931	CMTOE126AS	1237400	0.7947	0.7838	0.7765
127.	अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, तह. अर्की, डाकघर दाइलाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश-171102	CMTOE127HP	2565858	0.8343	0.8198	0.8102

128.	डायमंड सीमेंट प्रोप. हीडलबर्ग सीमेंट, दमोह, ग्राम नरसिंहगढ़ जिला- दमोह, मध्य प्रदेश-470675	CMTOE128MP	3017866	0.8696	0.8516	0.8396
उप क्षेत्र – सफेद सीमेंट						
129.	जेके व्हाइट सीमेंट, नागौर, पीओ। गोदन-342902 जिला-नागौर, राजस्थान	CMTOE129RJ	650,932	0.8743	0.8574	0.8461
130.	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, यूनिट-बिरला व्हाइट, डी-7 शास्त्री नगर जोधपुर-342003, राजस्थान	CMTOE130RJ	638,765	0.9809	0.9583	0.9432
उप क्षेत्र – पीसना						
131.	गिनिगेरा सीमेंट वर्क्स, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, गिनिगेरा गांव, कोप्पल, कर्नाटक-583228	CGUOE001KA	1,557,427	0.0028	-	0.0028
132.	ओरिएंट सीमेंट जलगांव, पीओ नशीराबाद, जिला जलगांव, महाराष्ट्र, 425329	CGUOE002MH	1,437,916	0.0086	0.0086	0.0085
133.	जेके सीमेंट वर्क्स, साथा, कासिमपुर, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश-202127	CGUOE003UP	1,230,254	0.0115	-	0.0113
134.	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, नागपुर ग्राइंडिंग यूनिट ग्राम- तारा अष्टी नवेगांव, तहसील- मौदा डीसिटा। नागपुर, महाराष्ट्र-441106	CGUOE004MH	1,401,135	0.0126	-	0.0124
135.	आरसीसीपीएल प्रा. लिमिटेड (पूर्व में रिलायंस सीमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड) कुंदनगंज, रायबरेली, उत्तर प्रदेश- 202127	CGUOE005UP	2,787,464	0.0128	-	0.0125
136.	अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, दादरी, ग्राम धूम मनिकापुर, डाकघर दादरी, जिला, गौतम बुद्ध नगर - 203207	CGUOE006UP	1,929,850	0.0139	0.0137	0.0136
137.	एमएस। वंडर सीमेंट लिमिटेड यूनिट झज्जर, सहलावास, तहसील-मातनहेल, जिला-झज्जर, हरियाणा-124146	CGUOE007HR	2,934,833	0.0159	-	0.0155
138.	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, यूनिट:- झज्जर सीमेंट वर्क्स, गांव झाड़ली, तह:- मातनहेल पीओ झाड़ली, जिला झज्जर, हरियाणा 124106	CGUOE008HR	2,187,031	0.0159	0.0157	0.0155
139.	डायमंड सीमेंट्स, प्रोप: हीडलबर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड, मदोरा गांव, पोस्ट ऑफिस बरता कलां, जिला झांसी, यूपी-284121	CGUOE009UP	2,706,941	0.0169	0.0166	0.0164

140.	जेके सीमेंट झाड़ली, डाकघर झाड़ली जिला झज्जर, हरियाणा 124106	CGUOE010HR	1,626,580	0.0171	0.0168	0.0166
141.	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड यूनिट बठिंडा सीमेंट वर्क्स, गांव लहरा मोहब्बत, जिला बठिंडा, पंजाब-151111	CGUOE011PB	1,661,535	0.0173	0.0170	0.0168
142.	अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड-होतगी सीमेंट वर्क्स, पोस्ट ऑफिस होतगी, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र 413215	CGUOE012MH	2,918,900	0.0178	0.0175	0.0173
143.	सूरतगढ़ ग्राइंडिंग यूनिट श्री सीमेंट लिमिटेड, उदासपुर, सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर, राजस्थान-335804	CGUOE013RJ	3,178,059	0.0182	-	0.0177
144.	स्टार सीमेंट लिमिटेड, गुवाहाटी ग्राइंडिंग यूनिट, ग्राम चंपता पत्थर, पीओ सोनपुर, जिला कामरूप (एम), असम 782402	CGUOE014AS	2,066,619	0.0182	0.0179	0.0177
145.	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (यूनिट: रुड़की सीमेंट वर्क्स), पुहाना इकबालपुर रोड, नल्हेडी, देहविरन गांव, पोस्ट ऑफिस: नल्हेडा अनंतपुर, रुड़की, हरिद्वार जिला उत्तराखंड - 247668	CGUOE015UK	1,537,182	0.0193	0.0190	0.0187
146.	एसीसी लिमिटेड- थोंडेभावी सीमेंट वर्क्स, पीओ थोंडेभावी जिला चिकबल्लापुर, कर्नाटक, 561203	CGUOE016KA	2,020,290	0.0197	0.0193	0.0190
147.	मेजिया सीमेंट लिमिटेड नुवोको विस्ता कॉर्प लिमिटेड अमदंगा, बांकुरा, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल-722813	CGUOE017WB	1,421,803	0.0200	-	0.0193
148.	श्री सीमेंट लिमिटेड (यूनिट: बिहार सीमेंट प्लांट), औरंगाबाद, ग्राम औरंगाबाद, पीओ औरंगाबाद, बिहार, 824101	CGUOE018BR	3,352,630	0.0207	0.0202	0.0199
149.	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (यूनिट: बाघेरी सीमेंट वर्क्स), ग्राम पांडियाना, पीओ बाघेरी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश 174101	CGUOE019HP	1,699,039	0.0208	0.0203	0.0200
150.	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, झारसुगुडा सीमेंट वर्क्स, पीओ अरदा, जिला झारसुगुडा, ओडिशा-768202	CGUOE020OD	3,021,872	0.0208	0.0204	0.0201

151.	अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, नालागढ़ जजहरा, नालागढ़ सोलन, हिमाचल प्रदेश- 174101	CGUOE021HP	1,536,323	0.0210	-	0.0202
152.	डालमिया सीमेंट ईस्ट लिमिटेड (पूर्व में बोकारो जेपी सीमेंट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), बोकारो स्टील सिटी, बालीडीह, बोकारो, झारखंड, 827014	CGUOE022JH	3,072,183	0.0217	0.0212	0.0209
153.	श्री सीमेंट लिमिटेड, बुलन्दशहर ग्राइंडिंग यूनिट, 12 यूपीएसआईडीसी, औद्योगिक क्षेत्र, डाकघर सिकंदराबाद, जिला बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश-203205	CGUOE023UP	2,004,899	0.0218	0.0213	0.0210
154.	अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, रोपड़ , गांव - दोबुर्जी पीओ लोधीमाजरा जिला रोपड़, पंजाब - 140113	CGUOE024PB	3,846,091	0.0220	0.0215	0.0212
155.	अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड सांकराइल, ग्राम जलाधुलागोरी पीओ धुलागोरी, जिला हावड़ा, पश्चिम बंगाल 711302	CGUOE025WB	2,638,809	0.0223	0.0218	0.0214
156.	पश्चिम बंगाल सीमेंट वर्क्स, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड राजबंघ बर्धमान पश्चिम बंगाल-713212	CGUOE026WB	1,116,774	0.0231	-	0.0222
157.	श्री सीमेंट लिमिटेड, खुशखेड़ा ग्राइंडिंग यूनिट, प्लॉट नंबर एसपी 3(11)/ए1, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, खुशखेड़ा, पीओ महेशरा, जिला अलवर, राजस्थान-301707	CGUOE027RJ	2,659,026	0.0231	0.0226	0.0222
158.	अंबुजा सीमेंट लिमिटेड फरक्का, श्रीमंतपुर, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल- 742212	CGUOE028WB	1,441,016	0.0237	-	0.0227
159.	मेसर्स जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड ग्राइंडिंग यूनिट, बाजितपुर, झामरी झज्जर, हरियाणा- 124142	CGUOE029HR	1,059,100	0.0239	-	0.0229
160.	हीडलबर्ग सीमेंट (आई) लिमिटेड, दमोह, मध्य प्रदेश - 470661	CGUOE030MP	1,636,298	0.0241	0.0235	0.0231
161.	मैसर्स अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट लिमिटेड, यूनिट: नीम का थाना सीमेंट वर्क्स, सिरोही, नीम का थाना सीकर, राजस्थान-332714	CGUOE031RJ	1,274,359	0.0245	-	0.0234

162.	श्री झारखंड सीमेंट प्लांट (श्री सीमेंट लिमिटेड की एक इकाई) हांसदा, बुरुडीह, सरायकेला-खरसावां, झारखंड-833220	CGUOE032JH	2,397,521	0.0250	-	0.0239
163.	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड सोनार बांग्ला ग्राइंडिंग यूनिट, धालो गांव, पीओ गंकर, पीएस रघुनाथगंज - मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल - 742227	CGUOE033WB	2,580,937	0.0253	0.0247	0.0242
164.	अल्ट्राटेक सीमेंट वानकबोरी ग्राइंडिंग यूनिट, एनआर। टीपीएस, सांगोल गांव, पीओ सोनीपुर, सांगोल 388239, खेड़ा, गुजरात	CGUOE034GJ	2,343,627	0.0274	0.0266	0.0261
165.	कैलकॉम सीमेंट इंडिया लिमिटेड लैंक, गांव 2 नंबर पीपल पुखुरी, पीओ लंका, जिला, होजाई, असम, 782446	CGUOE035AS	1,908,069	0.0276	0.0268	0.0263
166.	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड दानकुनी, हुगली, पश्चिम बंगाल-712306	CGUOE036WB	2,299,152	0.0296	-	0.0281
167.	दुर्गा हाईटेक सीमेंट, बिरला कॉर्पोरेशन की एक इकाई, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल-713301	CGUOE037WB	825,818	0.0316	-	0.0299
168.	कुडिथिनी सीमेंट वर्क्स, कुडिथिनी, बेल्लारी, कर्नाटक-583115	CGUOE038KA	1,169,127	0.0323	0.0312	0.0305
169.	रैमको सीमेंट्स लिमिटेड, रक्सचक, कोलाघाट, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल-721134	CGUOE039WB	1,513,204	0.0339	-	0.0319
170.	माई होम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, मुलकलापल्ली ग्राइंडिंग प्लांट, मुलकलापल्ली गांव, येल्लामंचिली (एम), विशाखापत्तनम जिला-531055, आंध्र प्रदेश	CGUOE040AP	1,514,881	0.0347	0.0334	0.0326
171.	रैमको सीमेंट्स लिमिटेड, गोबुरुपालेम, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश-531055	CGUOE041AP	1,853,913	0.0354	-	0.0332
172.	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, पाटलिपुत्र सीमेंट, ग्राम शाहजहाँपुर, डाकघर शाहजहाँपुर, जिला पटना, बिहार, 801305	CGUOE042BR	3,644,388	0.0355	0.0342	0.0334

173.	इमामी सीमेंट लिमिटेड, पानागढ़ ग्राइंडिंग यूनिट, पानागढ़ इंडस्ट्रियल पार्क डब्ल्यूबीआईडीसी, पीओ कोटाग्राम, जिला पुरबा बर्धमान, पश्चिम बंगाल-713148	CGUOE043WB	2,082,352	0.0357	0.0343	0.0335
174.	एसीसी लिमिटेड, टिकरिया सीमेंट वर्क्स, गौरीगंज जिला, छत्रपति शाहूजी महाराज नगर, उत्तर प्रदेश-227409	CGUOE044UP	3,940,086	0.0363	0.0349	0.0340
175.	कपिलास सीमेंट मैनुफैक्चरिंग वर्क्स, ग्राम बिस्वाली, पीओ बरुनिया, जिला कटक, ओडिशा 754082	CGUOE045OD	2,840,336	0.0368	0.0354	0.0345
176.	मेसर्स बारा सीमेंट वर्क्स, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की एक इकाई, लोहगरा, तहसील- बारा, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश -212107	CGUOE046UP	2,420,442	0.0387	-	0.0361
177.	बंगाल सीमेंट वर्क्स (डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड की इकाई) गांव कुलपचूरिया, पोस्ट ऑफिस बेउंचा, जिला पश्चिमी मिदनापुर, पश्चिम बंगाल 721129	CGUOE047WB	2,283,939	0.0436	0.0417	0.0403
178.	मेसर्स जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड कलिंग नगर, औद्योगिक क्षेत्र, जाजपुर, ओडिशा-755026	CGUOE048OD	720,570	0.0439	-	0.0406
179.	एनयू विस्टा लिमिटेड (पूर्व में इमामी सीमेंट लिमिटेड) कलिंगा नगर, औद्योगिक परिसर, जाजपुर, ओडिशा-755026	CGUOE049OD	618,373	0.0458	-	0.0422
180.	एसीसी लिमिटेड - सिंदरी सीमेंट वर्क्स, पीओ सिंदरी, जिला धनबाद, झारखंड 828124	CGUOE050JH	3,769,042	0.0475	0.0451	0.0436
181.	दुर्गापुर सीमेंट वर्क्स (विडला कॉर्पोरेशन लिमिटेड की इकाई), पोस्ट ऑफिस दुर्गापुर, जिला पश्चिम बर्दवान, पश्चिम बंगाल-713301	CGUOE051WB	962,304	0.0479	0.0455	0.0439
182.	श्री सीमेंट लिमिटेड, रूडकी ग्राइंडिंग यूनिट, गांव -अकबरपुर औद, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड -247663	CGUOE052UK	721,193	0.0558	0.0526	0.0504

183.	जोजोबेरा सीमेंट प्लांट, नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जमशेदपुर, राहरगोरा, सिंहभूम (पूर्व), झारखंड-831016	CGUOE053JH	6,403,206	0.0659	0.0614	0.0584
184.	जेएसडब्ल्यूसीएल सालबोनी, गांव जामबेदिया, पोस्ट ऑफिस सैयदपुर वाया सालबोनी, जिला, पश्चिम मिदनापुर, पश्चिम बंगाल-721306	CGUOE054WB	1,777,990	0.0745	0.0688	0.0649
185.	एसीसी लिमिटेड, (चाईबासा), चाईबासा जिकंपानी जिला सिंहभूम-833 215, झारखण्ड	CGUOE055JH	724,759	0.1272	0.1104	0.0993
186.	जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड, विजयनगर वर्क्स, बेल्लारी यूनिट, पीओ विजयनगर, जिला बेल्लारी, कर्नाटक- 583275	CGUOE056KA	1,605,651	0.1480	0.1254	0.1102

क्र. सं.	बाध्यकारी इकाई		मूल के समकक्ष प्रमुख उत्पाद आउटपुट 2023-24	मूल जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता 2023-24	जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य	
					(5)	
					अनुपालन वर्ष 2025-26	अनुपालन वर्ष 2026-27
(1)	(2)	(3)	(4)	(क)	(ख)	
	नाम, पता और राज्य	पंजीकरण संख्या	(टन)	(tCO ₂ समकक्ष / समकक्ष उत्पाद का टन)	(tCO ₂ समकक्ष / समकक्ष उत्पाद का टन)	
क्षेत्र-क्लोर-क्षार						
1.	अतुल लिमिटेड, अतुल, वलसाड, 396020, गुजरात	CNAOE001GJ	33632	2.2369	2.1665	2.0609
2.	बोडल केमिकल्स लिमिटेड यूनिट XII (बोडल केमिकल्स लिमिटेड की एक इकाई), ग्राम खडौली, सरदारगढ, पीबी नंबर: 52, राजपुरा, जिला पटियाला, पंजाब	CNAOE002PB	85649	1.6797	1.6250	1.5428
3.	केमफैब अल्कलिस लिमिटेड, कालपेट- 605014, पुदुचेरी	CNAOE003PY	56492	1.6657	1.6119	1.5311
4.	केमप्लास्ट सनमार लिमिटेड, मेलावनजोर, कराईकल क्षेत्र, केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी	CNAOE004PY	43893	1.3983	1.3708	1.3295
5.	केमप्लास्ट सनमार लिमिटेड, वीरक्कलपुदुर, रमन नगर पोस्ट, मेट्टूर बांध, सलेम जिला-636403, तमिलनाडु	CNAOE005TN	61698	3.0520	2.9210	2.7244

6.	डीसीएम श्रीराम कंसॉलिडेटेड लिमिटेड (श्रीराम विनाइल एंड केमिकल इंडस्ट्रीज), क्लोर अल्कली प्लांट, श्रीराम नगर, कोटा - 324004, राजस्थान	CNAOE006RJ	212580	1.9371	1.8844	1.8052
7.	डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, साहूपुरम, तूतूकोरिन जिला, 628229, तमिलनाडु	CNAOE007TN	74760	2.3870	2.3068	2.1866
8.	एपिग्रल लिमिटेड, प्लॉट नंबर: सीएच 1 और 2; दहेज इंडस्ट्रियल एस्टेट, दहेज, भरूच-392130, गुजरात	CNAOE008GJ	345888	2.5750	2.4817	2.3418
9.	ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड-केमिकल डिवीजन-रेहला, गढ़वा रोड, पोस्ट ऑफिस: रेहला, जिला पलामू, 822124, झारखंड	CNAOE009JH	198941	2.8134	2.7021	2.5350
10.	ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यूनिट: इंडियन रेयॉन, कास्टिक और पावर प्लांट, वेरावल, जिला जूनागढ़-362266, गुजरात	CNAOE010GJ	94790	2.5566	2.4647	2.3268
11.	ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, केमिकल डिवीजन कारवार, बिनगा कारवार, उत्तर कन्नड़-581307, कर्नाटक	CNAOE011KA	77946	0.4314	0.4314	0.4314
12.	ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, केमिकल डिवीजन - रेनुकूट पीओ रेनुकूट, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश	CNAOE012UP	147479	3.0023	2.8755	2.6853
13.	ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, केमिकल डिवीजन-गंजम, जयश्री, गंजम-761025, ओडिशा	CNAOE013OR	67719	1.5898	1.5407	1.4671
14.	ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, केमिकल डिवीजन-नागदा, बिरलाग्राम, नागदा, 456331, मध्य प्रदेश	CNAOE014MP	268017	1.6981	1.6413	1.5561
15.	ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, केमिकल डिवीजन-विलायत, प्लॉट नंबर 1, जीआईडीसी, विलायत, तालुका: वागरा, जिला भरूच-392140, गुजरात	CNAOE015GJ	390681	1.2159	1.1951	1.1639
16.	गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड, एटी एंड पीओ: दहेज, तालुका: वागरा, जिला भरूच, 392130, गुजरात	CNAOE016GJ	384610	1.3182	1.2937	1.2571
17.	गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड, पी.ओ. पेट्रोकेमिकल्स,	CNAOE017GJ	251354	1.1966	1.1689	1.1272

	जिला वडोदरा, 391346, गुजरात					
18.	गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड, प्लॉट नंबर: 12/ए, दहेज जीआईडीसी कॉम्प्लेक्स, वागरा, भरूच-392130, गुजरात	CNAOE018GJ	152246	2.0837	2.0226	1.9310
19.	कच्छ केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वरसाना, पदाना, कच्छ, 370201, गुजरात	CNAOE019GJ	155580	1.9748	-	1.8376
20.	लॉर्ड्स क्लोरो अल्कली लिमिटेड, एसपी - 460, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर, 301030, राजस्थान	CNAOE020RJ	70616	1.7962	1.7336	1.6396
21.	निरमा लिमिटेड, केमिकल कॉम्प्लेक्स, गांव: कलातलाव, तालुका और जिला, भावनगर - 364313, गुजरात	CNAOE021GJ	239648	1.8940	1.8436	1.7679
22.	ओरिएंट पेपर मिल्स (सीएसयू), प्रोप: ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बरगवान अमलाई, पोस्ट ऑफिस अमलाई पेपर मिल्स, अनूपपुर-484117, मध्य प्रदेश	CNAOE022MP	38561	3.2213	3.0753	2.8563
23.	प्राइमो केमिकल्स लिमिटेड (पूर्व में पंजाब अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), नांगल ऊना रोड, नया नांगल, जिला रोपड़-140126 पंजाब	CNAOE023PB	130762	1.6170	1.5663	1.4902
24.	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, विनिर्माण प्रभाग, दहेज, वागरा, भरूच - 392130, गुजरात	CNAOE024GJ	182582	1.7486	1.7056	1.6411
25.	श्रीराम अल्कली एंड केमिकल्स, 749, जीआईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट, झगड़िया, जिला भरूच-393110, गुजरात	CNAOE025GJ	462646	2.3728	2.2936	2.1748
26.	तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, मनाली एक्सप्रेस हाईवे, चेन्नई-68	CNAOE026TN	42147	0.8377	0.8241	0.8036
27.	टीजीवी एसआरएएसए लिमिटेड, गोंडीपरला, कुरनूल- 518004, आंध्र प्रदेश	CNAOE027AP	301121	1.5974	1.5615	1.5077
28.	आंध्र शुगर लिमिटेड, केमिकल और फर्टिलाइजर डिवीजन, सागगोंडा गांव, डोंडापुडी, पश्चिम गोदावरी, 534318, आंध्र प्रदेश	CNAOE028AP	174665	2.5331	2.4429	2.3075
29.	त्रावणकोर कोचीन केमिकल्स	CNAOE029KL	77141	1.9144	1.8433	1.7366

	लिमिटेड, उद्योगमंडल, एर्नाकुलम, कोच्चि - 683501, केरल					
30.	यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, 750 जीआईडीसी, पीवी नंबर 9, झगड़िया, भरूच-393110, गुजरात	CNAOE030GJ	41719	0.9386	0.9262	0.9076

क्र. सं.	बाध्यकारी इकाई	मूल के समकक्ष प्रमुख उत्पाद आउटपुट 2023-24	मूल जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता 2023-24	जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य		
				(5)		
				अनुपालन वर्ष 2025-26	अनुपालन वर्ष 2026-27	
(1)	(2)	(3)	(4)	(क)	(ख)	
	नाम, पता और राज्य	पंजीकरण संख्या	(टन)	(tCO ₂ समकक्ष / समकक्ष उत्पाद का टन)	(tCO ₂ समकक्ष / समकक्ष उत्पाद का टन)	

क्षेत्र: लुगदी एवं कागज

उप-क्षेत्र: एकीकृत संयंत्र

1.	आंध्रा पेपर लिमिटेड, 14-6-9, एडमिन बिल्डिंग, कटेरु रोड, श्रीराम नगर, राजमहेंद्रवरम, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश-533105	PNPOE001AP	341806	0.4017	0.3988	0.3945
2.	जेके पेपर लिमिटेड, जेके पेपर मिल्स (जेकेपीएम रायगड़ा की इकाई), पीओ जयकयपुर, रायगड़ा जिला, ओडिशा, पिन - 765017	PNPOE002OD	350528	0.7448	0.7349	0.7201
3.	नैनी पेपर्स लिमिटेड (नैनी टिश्यूज लिमिटेड), 7वां केएम स्टोन मोरादाबाद रोड, काशीपुर, उत्तराखंड, पिन-244713	PNPOE003UK	121069	0.7875	0.7764	0.7599
4.	आईटीसी लिमिटेड - पेपरबोर्ड और स्पेशलिटी पेपर्स डिवीजन, यूनिट: भद्राचलम, सरपाका, भद्राद्री कोठागुडेम जिला, तेलंगाना, पिन - 507128	PNPOE004TS	844413	1.0207	1.0021	0.9743
5.	बिल्ट ग्राफिक पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, पोस्ट ऑफिस बल्लारपुर पेपर मिल्स, पेपर	PNPOE005MH	333857	1.1524	1.1288	1.0933

	मिल्स कंपाउंड, अल्लापल्ली रोड, बल्लारपुर, चंद्रपुर, महाराष्ट्र, पिन - 442901					
6.	तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड, यूनिट-II, मोंदीपट्टी, के.पेरियापट्टी, तमिलनाडु, पिन- 621306	PNPOE006TN	196248	1.2593	1.2310	1.1887
7.	जेके पेपर लिमिटेड, यूनिट: सीपीएम, पोस्ट ऑफिस सेंट्रल पल्प मिल्स, फोर्ट सोनगढ़, जिला तापी, गुजरात, पिन - 394660	PNPOE007GJ	363533	1.3929	1.3583	1.3065
8.	शेषशायी पेपर एंड बोर्डर्स लिमिटेड-यूनिट: इरोड, पोस्ट ऑफिस-कावेरी आरएस पीओ, जिला-नामक्कल, तमिलनाडु-638007	PNPOE008TN	178439	1.4424	1.4053	1.3498
9.	वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड, बांगुर नगर, पोस्ट बॉक्स नंबर 5, दांडेली 581325, जिला उत्तर कन्नड़, कर्नाटक	PNPOE009KA	303279	1.4431	1.4060	1.3504
10.	ट्राइडेंट लिमिटेड (पूर्व में अभिषेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), ट्राइडेंट कॉम्प्लेक्स, मनसा रोड, धौला, बरनाला, पंजाब-148107	PNPOE010PB	140128	1.4614	1.4233	1.3663
11.	क्वांटम पेपर्स लिमिटेड, तहसील गढ़शंकर, चंडीगढ़ रोड, सैला खुर्द, होशियारपुर, पंजाब, पिन - 144529	PNPOE011PB	153058	1.4925	1.4528	1.3933
12.	स्टार पेपर मिल्स, सहारनपुर, डाकघर- पेपर मिल, जिला-सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, पिन-247001	PNPOE012UP	73751	1.8433	1.7828	1.6920
13.	बिंदल पेपर्स मिल लिमिटेड, 8वीं किमी भोपा रोड, मुजफ्फर नगर, उत्तर प्रदेश, पिन-251001	PNPOE013UP	96086	1.9456	1.8782	1.7771
14.	तमिलनाडु न्यूजप्रिंट पी लिमिटेड, डाकघर - कगीथापुरम, जिला-करूर, तमिलनाडु, पिन- 639136	PNPOE014TN	430874	2.0957	2.0175	1.9002
15.	सिरपुर पेपर मिल्स लिमिटेड कागजनगर, आदिलाबाद, पिन-504296आंध्र प्रदेश	PNPOE015TS	122083	2.2517	2.1615	2.0261
16.	केआर पल्प एंड पेपर्स	PNPOE016UP	82992	2.3105	2.2154	2.0729

	लिमिटेड, जलालाबाद रोड, रामपुरा, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश, पिन-242001					
17.	सेंचुरी पल्प एंड पेपर, (डिवीजन: आदित्य विडला रियल एस्टेट लिमिटेड), घनश्यामधाम, लालकुआ, जिला नैनीताल, उत्तराखंड, पिन - 262402	PNPOE017UK	422037	2.4676	2.3592	2.1966
18.	ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पीओ: अमलाई पेपर मिल, जिला- शहडोल, मध्य प्रदेश, पिन - 484117	PNPOE018MP	91450	3.4072	3.2005	2.8904
उप-क्षेत्र: आरसीएफ आधारित संयंत्र						
19.	संगल पेपर्स लिमिटेड, ग्राम। भैंसा, 22 किमी स्टोन मेरठ मवाना रोड, मवाना, संधान, उत्तर प्रदेश, पिन- 250401	PNPOE019UP	30746	0.1086	0.1083	0.1078
20.	बहल पेपर मिल्स लिमिटेड, 05वां केएम स्टोन अलीगंज रोड, काशीपुर, उत्तराखंड, पिन-244713	PNPOE020UK	105396	0.1701	0.1693	0.1682
21.	देव प्रिया पेपर प्रा. लिमिटेड, 8वां किमी, ग्राम सैनी मवाना रोड, सैनी, उत्तर प्रदेश, पिन - 250001	PNPOE021UP	60706	0.1854	0.1845	0.1832
22.	अग्रवाल डुप्लेक्स बोर्ड मिल्स लिमिटेड, 4 किमी स्टोन, भोपा रोड, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, पिन-251001	PNPOE022UP	62822	0.3199	0.3173	0.3134
23.	सिद्धार्थ पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट-2, 7वां किमी। मोरादाबाद रोड, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड, पिन-244713	PNPOE023UK	123545	0.3507	0.3476	0.3428
24.	श्री भागेश्वरी पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड, 9वीं केएम स्टोन, भोपा रोड, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, पिन-251001	PNPOE024UP	100484	0.4917	0.4855	0.4762
25.	सिल्वरटोन पेपर्स लिमिटेड 9 किमी स्टोन भोपा रोड, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश- 251001	PNPOE025UP	116061	0.5338	-	0.5155
26.	पसवाड़ा पेपर्स लिमिटेड, NH-58, पसवाड़ा बॉर्डर, मोहिउद्दीनपुर दिल्ली रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश, पिन- 250002	PNPOE026UP	150067	0.5734	0.5649	0.5523

27.	श्री वेंकटेश पेपर मिल्स प्रा. लिमिटेड, 16 किमी मवाना रोड, फिटकारी, उत्तर प्रदेश, पिन- 250401	PNPOE027UP	64426	0.7408	0.7267	0.7056
28.	तीर्थक पेपर मिल प्राइवेट लिमिटेड लीलापार रोड, राजकोट जिला, मोरबी, गुजरात- 363641	PNPOE028GJ	105716	0.8152	-	0.7726
29.	आईटीसी लिमिटेड, पीएसपीडी - डिजीजन, (कोवई यूनिट), विवेकानंदपुरम, थेक्कमपट्टी गांव, मेट्टुपालयम टॉक, कोयंबटूर, तमिलनाडु, पिन - 641113	PNPOE029TN	111969	0.8216	0.8043	0.7784
30.	देव प्रिया प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम सैनी, 8वीं किमी मवाना रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250002	PNPOE030UP	144963	0.8402	0.8221	0.7949
31.	सिद्धेश्वरी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड 8.6 किमी जानसठ रोड, नई मंडी, उत्तर प्रदेश, पिन - 251001	PNPOE031UP	59842	0.8839	0.8639	0.8338
32.	मारुति पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड 8वां केएम स्टोन, ग्राम सिक्का, शामली, उत्तर प्रदेश- 247776	PNPOE032UP	112866	0.9234	-	0.8687
33.	एनआर अग्रवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड - यूनिट 1, 169, जीआईडीसी, चरण 2, बलसाड, वापी, गुजरात, पिन - 396195	PNPOE033GJ	112676	0.9338	0.9114	0.8779
34.	श्रीपति पेपर एंड बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड, 88/1,90/2, सुक्किरवरपट्टी, अन्निकुट्टम, शिवकाशी, विरुधुनगर, तमिलनाडु, पिन -626130	PNPOE034TN	123291	1.0112	0.9850	0.9456
35.	जीनस पेपर, 8वां किमी जानसठ रोड, सिखेरा, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, पिन - 251001	PNPOE035UP	89576	1.0148	0.9884	0.9488
36.	खन्ना पेपर मिल्स लिमिटेड, एनएच-3 बायपास, मेट्रो कैश एंड कैरी के सामने, अमृतसर- 143001, पंजाब	PNPOE036PB	438491	1.0390	1.0114	0.9698

37.	जीनस पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड अगवानपुर, कांठ रोड, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश- 244001	PNPOE037UP	98167	1.0766	-	1.0023
38.	गर्ग डुप्लेक्स एंड पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड 8.5 किमी.भोपा रोड, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, पिन-251001	PNPOE038UP	40851	1.1318	-	1.0497
39.	बिल्ट ग्राफिक पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, यूनिट-भिगवान, 105 माइलस्टोन, पुणे सोलापुर हाईवे, गांव भदलवाडी, पौडवाडी ताल इंदापुर, पुणे, महाराष्ट्र, पिन- 413105	PNPOE039MH	277720	1.2049	1.1677	1.1118
40.	साउथ इंडिया पेपर प्लांट लिमिटेड, नंजनगुड, चिक्कयानाछात्र, मैसूर जिला, कर्नाटक-571302	PNPOE040KA	69813	1.3288	-	1.2156
41.	इमामी पेपर मिल्स लिमिटेड, बालगोपालपुर, पोस्ट- रसूलपुर, जिला- बालासोर, ओडिशा, पिन-756020	PNPOE0041OD	327977	1.3725	1.3242	1.2518
42.	देव प्रिया इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड, 8वां किमी, सैनी मवाना रोड, मेरठ, गंगा नगर, उत्तर प्रदेश, पिन- 250001	PNPOE042UP	144400	1.4577	1.4032	1.3214
43.	आनंद ट्रिपलएक्स बोर्ड लिमिटेड, सैनी, मवाना रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश, पिन - 250001	PNPOE043UP	33011	1.6021	1.5362	1.4375
44.	एनआर अग्रवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यूनिट वी, सर्वे नंबर 69/1/पी3, 72/पी3, 92/पी2, 93/पी2, 94/पी1, सारीग्राम काले रोड, गांव: अंगम और सारीग्राम, बलसाड, पिन - 396155, गुजरात	PNPOE044GJ	88749	1.6892	1.6160	1.5063
45.	शेषशायी पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड, यूनिट: तिरुनेलवेली, एलान्थाइकुलम, मुक्कुदल, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु, पिन - 627601	PNPOE045TN	76978	1.7692	1.6889	1.5685

46.	सिल्वरटन पल्प एंड पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड, 9वां केएम स्टोन, भोपा रोड, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश-251003	PNPOE046UP	93989	2.2803	-	1.9469
उप-क्षेत्र – कृषि आधारित संयंत्र						
47.	सैनसंस पेपर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, गांव बाखली, तहसील-पेहोवा, पेहोवा, हरियाणा, पिन - 136128	PNPOE047HR	125415	0.0211	0.0209	0.0206
48.	सतिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुक्तसर मलोट रोड, वीपीओ रूपाना, श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब, पिन -152032	PNPOE048PB	213804	0.0472	0.0463	0.0450
49.	पक्का लिमिटेड, यश नगर, दर्शन नगर, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, पिन- 224135	PNPOE049UP	56220	0.1034	0.0991	0.0926
50.	श्रेयांस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। (यूनिट: श्री ऋषभ पेपर्स), गांव - बनाह, पोस्ट ऑफिस: बनाह, बालाचौर, पंजाब, पिन -144522	PNPOE050PB	38583	0.1335	0.1263	0.1155
51.	रुचिरा पेपर्स लिमिटेड, त्रिलोकपुर रोड, काला अम्ब, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, पिन-173030	PNPOE051HP	55257	1.9806	1.8737	1.7133
उप-क्षेत्र: विशेष कागज संयंत्र						
52.	पुदुमजी पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, थेरगांव रोड, थेरगांव गांव, जिला पुणे, महाराष्ट्र, पिन - 411033	PNPOE052MH	64305	1.7547	1.7080	1.6380
53.	आईटीसी लिमिटेड, पेपरबोर्ड्स और स्पेशलिटी पेपर्स डिवीज़न। यूनिट ट्रिबेनी, चंद्रहाटी, हुगली, पश्चिम बंगाल, पिन-712504	PNPOE053WB	50622	2.2907	2.2111	2.0917

नोट: वर्तमान अनुसूची में जीईआई लक्ष्यों की गणना ब्यूरो द्वारा प्रकाशित विस्तृत प्रक्रिया में वर्णित पद्धति के अनुसार की गई है।

[फा. सं. एचएसएम-12/114/202]

नमिता प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th April, 2025

G.S.R. 234(E).—Whereas, Government of India has notified the Carbon Credit Trading Scheme, 2023 vide S.O. 2825(E) dated 28th June 2023 under the powers conferred by clause (w) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001) which defines the Indian carbon market framework where a market framework is established for trading of the carbon credit certificates to reduce or remove or avoid the greenhouse gases emissions.

AND WHEREAS, under the compliance mechanism of the said scheme, greenhouse gases emission intensity (GEI) targets for the obligated entities are to be notified by the Ministry of Environment, Forest, and Climate Change.

Now, THEREFORE, in exercise of power conferred by section 3, 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby proposes to issue draft notification for the information of the public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty (60) days from the date of publication of the draft in the official Gazette;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi - 110003, and may be sent to e-mail id: **ccts.hsm-moefcc@gov.in**

1. **Short Title and Commencement** – (1) These targets may be called Greenhouse Gases Emission Intensity Target Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions** – (1) In this framework, unless the context otherwise requires, the following definitions shall apply –
 - a. **“banked”** means the number of carbon credit certificates remaining with an obligated entity after the completion of compliance for the respective compliance year.
 - b. **“Bureau”** means the Bureau of Energy Efficiency as defined in section 2(d) of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001).
 - c. **“compliance year”** means the financial year by which an obligated entity shall meet its greenhouse gases emission intensity target.
 - d. **‘detailed procedure’** shall have the same meaning as assigned to it in sub-paragraph (2) of paragraph 12 in the Carbon Credit Trading Scheme, 2023, notified vide S.O. 2825 (E) on 28th June, 2023.
 - e. **“GEI”** means greenhouse gases emission intensity in tCO₂e/equivalent output or product.
(2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Environment Protection Act, 1986 (29 of 1986), the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and the Carbon Credit Trading Scheme, 2023 shall have the same meanings respectively as assigned to them in those Acts and Scheme.
3. **Objectives** – (1) The main objectives of these rules are as follows:
 - a. To contribute to the attainment of the Nationally Determined Contribution by reducing GEI through the reduction or removal or avoidance of greenhouse gases emissions.
 - b. To promote the adoption of sustainable, cutting-edge technologies across traditionally high-emission industries, for addressing climate change.
4. **Greenhouse gases Emission Intensity (GEI) Targets** – (1) The GEI Targets shall be calculated as per the methodology described in the Detailed Procedure as published by Bureau.
(2) The GEI Targets, for the specified trajectory period shall be as given in the Schedule annexed to this notification.
(3) In respect of each obligated entity mentioned in column (2) of the Schedule, the GEI targets shall be as mentioned in column (5) of the said schedule for the number of compliance years in relation to their baseline GEI, mentioned in column (3) of the said schedule.
5. **Obligations of the Obligated Entity(s)** – (1) The obligated entity shall -

- a. achieve the GEI targets in the respective compliance year as per the Schedule, in accordance with the sub-paragraph (4) of paragraph 11 of Carbon Credit Trading Scheme.
 - b. meet its GEI target for the respective compliance year by purchasing carbon credits certificates from the Indian carbon market, in case of not achieving the prescribed GEI target.
 - c. submit the banked carbon credit certificates or carbon credit certificates purchased in the current compliance year equivalent to the shortfall to comply with the GEI target in the respective compliance year.
 - d. register on the Indian Carbon Market (ICM) Portal within the timeline and in the manner as stipulated in the Detailed Procedure as published by Bureau.
 - e. submit all the documents within the timeline and in the manner as stipulated in the Detailed Procedure as published by the Bureau. All the submission shall be made through the Indian Carbon Market (ICM) Portal.
 - f. be liable to pay penalty, in case of non-compliance, against the shortfall in the respective compliance year.
6. **Issuance of Carbon Credit Certificates** – (1) Bureau shall issue the carbon credits certificate as per the sub-paragraph 2(c) of paragraph 5 of the Carbon Credit Trading Scheme, 2023.
- (2) The number of carbon credit certificates to be issued to the obligated entity as per sub-paragraph (6) of paragraph 11 of the Carbon Credit Trading Scheme, 2023, shall be determined as per the following formula:-
- number of carbon credit certificates to be issued in any compliance year:** (GEI Target for that compliance year – GEI Achieved in that compliance year) x unit of equivalent product produced in that compliance year;
- (3) The number of carbon credit certificates to be purchased by the Obligated Entity to meet the shortfall as per sub-paragraph (7) of paragraph 11 of the Carbon Credit Trading Scheme, 2023, shall be determined as per the following formula:-
- number of carbon credit certificates to be purchased in any compliance year:** (GEI Achieved for that compliance year – GEI Target in that compliance year) x unit of equivalent product produced in that compliance year;
- (4) The carbon credit certificates issued or purchased in any compliance year may be banked by the obligated entity in the manner as stipulated in the Detailed Procedure as published by the Bureau.
7. **Environmental Compensation** – (1) In case an obligated entity fails to comply with GEI target or fails to submit the carbon credit certificates equivalent to the shortfall for compliance, Central Pollution Control Board (CPCB) will impose Environmental Compensation on such obligated entity for the shortfall in the respective compliance year which will be equal to twice of the average price at which carbon credit certificate is traded during the trading cycle of that compliance year. The average price shall be determined by the Bureau.
- (2) Environmental Compensation shall be paid within the 90 days from the day of such imposition.
- (3) The fund collected under the Environmental Compensation shall be maintained in a separate account and utilized for the purposes of Carbon Credit Trading Scheme on the recommendation of the National Steering Committee for Indian carbon market and subsequent approval of the Central Government.
8. Any violation of provision of these Rules shall be dealt under the provisions of the Environmental Protection Act, 1986.

SCHEDULE

S. No.	Obligated Entity		Baseline Equivalent Major Product Output 2023-24	Baseline GHG Emission Intensity 2023-24	GHG Emission Intensity Target	
					(5)	
					Compliance Year 2025-26	Compliance Year 2026-27
(1)	(2)		(3)	(4)	(a)	(b)
	Name, Address and State	Registration Number	(Tonne)	(tCO ₂ equivalent /Tonne of equivalent product)	(tCO ₂ equivalent / Tonne of equivalent product)	

Sector: Aluminium						
Sub-Sector – Smelter						
1.	Vedanta Limited, Jharsuguda, Smelter II, SEZ Unit, Bhurkhamunda, Jharsuguda, Odisha - 768202	ALMOE001OD	1238336	13.4927	13.2260	12.8259
2.	Mahan Aluminium Plant, Bargawa, Singrauli, Madhya Pradesh -486886	ALMOE002MP	374049	15.6301	15.2722	14.7354
3.	Bharat Aluminium Company Limited, Balco Nagar, Korba, Chhattisgarh -495684	ALMOE003CG	591844	15.7129	15.3512	14.8087
4.	Aditya Aluminium, At Post - Lapanga, Sambalpur, Odisha - 768212	ALMOE004OD	372000	16.7031	16.2944	15.6813
5.	Vedanta Limited, Jharsuguda, Bhurkhamunda, Jharsuguda, Odisha - 768202	ALMOE005OD	555854	17.0814	16.6539	16.0127
6.	Nalco Smelter & Power Complex, Angul / Nalconagar, Angul, Odisha -759145	ALMOE006OD	473457	17.3505	16.9094	16.2479
7.	Hindalco Industries Limited, Hirakud Smelter, Hirakud, Sambalpur, Odisha -768016	ALMOE007OD	178830	19.2759	18.7315	17.9150
8.	Hindalco Industries Limited, Renukoot, Sonbhadra, Uttar Pradesh -231217	ALMOE008UP	423704	20.5549	20.0780	19.3627
Sub-Sector – Refinery						
9.	Hindalco Industries Ltd, Post Bag-1, Opp Yamanapur Village, Belgaum, Karnataka - 590010	ALMOE009KA	289121	0.5453	0.5335	0.5159
10.	Utkal Alumina International Limited, Doraguda, Post- Kucheipedar, Rayagada, Odisha -765015	ALMOE010OD	2445383	0.8361	0.8216	0.7998
11.	Vedanta Limited, Lanjigarh, Biswanathpur, Kalahandi, Odisha - 766027	ALMOE011OD	1813703	0.9354	0.9172	0.8899
12.	National Aluminium Company Limited, Mines & Refinery Complex, Damanjodi, Koraput, Orissa -763008	ALMOE012OD	2095026	1.1875	1.1582	1.1142
13.	Hindalco Industries Limited, Muri Works, Ranchi, Muri, Ranchi, Jharkhand -835101	ALMOE013JH	372507	1.4439	-	1.3355

S. No	Obligated Entity		Baseline Equivalent Major Product Output 2023-24	Baseline GHG Emission Intensity 2023-24	GHG Emission Intensity Target	
					(5)	
					Compliance Year 2025-26	Compliance Year 2026-27
(1)	(2)		(3)	(4)	(a)	(b)
	Name, Address and State	Registration Number	(Tonne)	(tCO ₂ equivalent /Tonne of equivalent product)	(tCO ₂ equivalent / Tonne of equivalent product)	
Sector: Cement						
Sub-Sector – Portland Pozzolana Cement						
1.	JK Cement, Muddapur, Distt. Bagalkot, Karnataka-587122	CMTOE001KA	3532948	0.4455	0.4417	0.4391
2.	Dalmia Cement Bharat Limited, Belgaum, Vill Yadwad, P.O. Yadwad, District Belgaum, Karnataka-591136	CMTOE002KA	2629151	0.4894	0.4852	0.4824
3.	Dalmia Cement (Bharat) Limited, Chinnakomerla Village, Distt. Kadapa, Andhra Pradesh-621651	CMTOE003AP	3166423	0.5173	0.5119	0.5083
4.	Dalmia Cement (Bharat) Limited,. Kalyanpur, Banjari, Rohtas, Bihar-821303	CMTOE004BR	1133857	0.5094	-	0.4998
5.	Shree Cement Limited, Kodla Cement Plant, Kodla & Benakanahalli, Sedam, Karnataka-585222	CMTOE005KA	4286776	0.4936	0.4873	0.4831
6.	Shree Cement Limited, Raipur Cement Plant, Village Khapradig, Tehsil Simga, Bhatapara, Baloda Bazar, Raipur Chattisgarh	CMTOE006CG	11435872	0.4694	0.4630	0.4586
7.	Amrit Cement Limited, Vill. Umlaper, P.O. Khalihriat, District East Jaintia Hills, Meghalaya, 793200	CMTOE007ML	955372	0.5325	0.5259	0.5214
8.	Mangalam Cement Ltd., Kota,P.O. Aditya nagar (Morak) Distt. Kota, , Rajasthan- 326520	CMTOE008RJ	4266298	0.5138	0.5066	0.5018
9.	UltraTech Nathdwara Cement Limited,Sirohi, tehsil Pindwara Distt-Sirohi- 307031, Rajasthan	CMTOE009RJ	7253059	0.5006	0.4933	0.4885
10.	Tamilnadu Cements Corporation Limited, Ariyalur, Village: Kairlabath, Ariyalur, Post Office: Ariyalur Cement Factory Post, Tamilnadu-621729	CMTOE010TN	1527557	0.4797	0.4720	0.4669
11.	NU VISTA LIMITED (Emami Cement Limited), Village: Risda, Post Office: Risda, District: Baloda Bazar, Chattisgarh-493332	CMTOE011CG	5723324	0.5089	0.5008	0.4954
12.	JK Cement limited, Nimbahera,Kailash Nagar-I Nimbahera Distt. Chittorgarh, Rajasthan-312617	CMTOE012RJ	4378944	0.5030	0.4948	0.4894
13.	Ultratech Cement Ltd.Unit - Dhar Cement Works, Tonki, Manawar, Dhar, Madhya Pradesh-454446	CMTOE013MP	7872567	0.5350	-	0.5210
14.	Dalmia Cement Bharat Limited, Thangskai, Lumshnong, East Jaintia Hills, Meghalaya-793210	CMTOE014ML	1446197	0.5764	0.5679	0.5623
15.	Jk Lakshmi Cement Ltd,Durg Malpuri-Khurd,Khasadih,Tehsil-Dhamdha, Ahiwara, Durg, Chhattisgarh, 490036	CMTOE015CG	3675964	0.5024	0.4939	0.4881
16.	Udaipur Cement Works Limited, Village: Shripati Nagar, Dabok, District: Udaipur, Rajasthan- 313022	CMTOE016RJ	3506174	0.5334	0.5248	0.5190
17.	Shree Digvijay Cement Company Limited, Jamnagar, PO. Digvijaygram, Sikka Dist., Gujarat-361140	CMTOE017GJ	1709557	0.5304	0.5217	0.5158
18.	Ultratech Cement ltd. (Vikram cement Works),P.O. Khor-458470 Distt.-Neemuch , Madhya Pradesh	CMTOE018MP	4978370	0.5437	0.5347	0.5287
19.	Reliance Cement Company Pvt Ltd,	CMTOE019MP	5390695	0.5885	0.5792	0.5730

	Maihar/Bharauli, Itahara, Satna, Madhya Pradesh-485773					
20.	Ultra Tech Cement Limited (Unit: Baga Cement Works) P.O.- Kandhar, The.- Arki, Distt. Solan, Himachal Pradesh-171102	CMTOE020HP	3935118	0.5427	0.5333	0.5270
21.	Shree Cement Ltd. Beawar, Bangur Nagar, PostBox NO.33, Beawar, Distt. Ajmer, Rajasthan-305901	CMTOE021RJ	4334256	0.5212	0.5117	0.5053
22.	Rain cement Ltd Unit-II, Kurnool, Sreepuram, Boinchervupally (V), Peapully (M), Kurnool Dist-518220 Andhra Pradesh	CMTOE022AP	2324109	0.5688	0.5591	0.5526
23.	Hills Cement Co. Ltd., Vill: Mynkree, 116 KM Stone. NH-44, Khliehriat PO, East Jaintia Hills, Meghalaya- 793200	CMTOE023ML	688284	0.5851	-	0.5688
24.	ACC Ltd. (Gagal Cement Works - II), P.O. Barmana, Distt Bilaspur, Pin - 174013, Himachal Pradesh	CMTOE024HP	2295606	0.5401	0.5301	0.5235
25.	ACC Ltd. (Gagal Cement Works - I), P.O. Barmana, Distt Bilaspur, Pin - 174013, Himachal Pradesh	CMTOE025HP	2036938	0.5351	0.5250	0.5183
26.	Balaji Cement Works, Ultratech Cement Limited, Post Office: Budawada, Village: Jaggayyapet Mandal, District Krishna, Andhra Pradesh-521175	CMTOE026AP	5447961	0.5586	0.5485	0.5418
27.	Prism Johnson Limited, Prism cement Works, Satna, Vill. Mankahari Tehsi, Madhya Pradesh, 485111	CMTOE027MP	3249503	0.5676	0.5575	0.5507
28.	Ultratech Cement Ltd (Reddipalayam Cement Works), P.O. Reddipalayam Dist.- Ariyalur-621704, Tamil Nadu	CMTOE028TN	1485350	0.5444	0.5342	0.5274
29.	Sagar Cements (R) Limited, Village: Gudipadu Village, Post Office: Gudipadu, District: Anantapur, Andhra Pradesh- 515408	CMTOE029AP	1407631	0.5832	0.5729	0.5661
30.	Nuvoco Vistas Corporation Limited (Nimbol Cement Plant- NCP) Vill: Nimbol. P.O. Nimbol, District Pali, Rajasthan, 306308	CMTOE030RJ	2577580	0.5502	0.5399	0.5331
31.	Ultratech Cement Ltd, Andhra Pradesh Cement Works, Bhogasamudram (V), Tadipatri, Andhra Pradesh- 515415	CMTOE031AP	8710175	0.5623	0.5518	0.5448
32.	Prism Johnson Limited, Unit-II, Mankahari, Bathia, Satna, Madhya Pradesh, 485111	CMTOE032MP	4781658	0.5667	0.5562	0.5491
33.	Rain Cement limited Unit I, Nalgonda, Ramapuram village Mellacheruvu Mandal Nalgonda Distt., Telangana-508246	CMTOE033TG	1302776	0.5877	0.5770	0.5699
34.	Dalmia Cement (Bharat) Ltd, Trichy, Dalmiapuram-621651 Trichy Distt., Tamil Nadu	CMTOE034TN	3892366	0.5720	0.5612	0.5541
35.	UltraTech Cement Ltd. Unit : Dalla Cement Works, S.H. 5 kota P.O. Dalla Distt. Sonebhadra, Uttar Pradesh-231207	CMTOE035UP	3111156	0.5799	0.5685	0.5610
36.	Ambuja Cement Ltd, (Bhatapara Cement Works), P.O. Rawan Tehsil Baloda Bazar Dist.- Raipur, Chattisgarh-493331	CMTOE036CG	6133197	0.5534	0.5420	0.5344
37.	Dalmia Cement Ariyalur, P.O. Ottakovil, Ariyalur, Tamil Nadu-621705	CMTOE037TN	2863675	0.5946	0.5832	0.5756
38.	Birla Corporation Ltd. (Satna Cement Works), P.O. Birla Vikas, Distt.- Satna, Madhya Pradesh-485005	CMTOE038MP	4608658	0.5692	0.5578	0.5502
39.	Ultratech Cement Limited, Hirmi Cement Works, P.O. Hirmi-493195 Distt. Raipur, Chattisgarh	CMTOE039CG	7605814	0.5651	0.5537	0.5461
40.	Ultratech Cement Ltd (Rajshree Cement Works), Adityanagar Malkhed Road- 585292, Dist.- Gulbarga, Karnataka	CMTOE040KA	10729705	0.5712	0.5598	0.5522
41.	Nuvoco Vistas Corp. Ltd. (formerly Lafarge India Limited) Gopalnagar, Dist:-Janjgir Champa, Chattisgarh-495663	CMTOE041CG	2104796	0.5438	0.5322	0.5245
42.	Chandaria cement Ltd., Chittorgarh, Sector- 3,	CMTOE042RJ	4941023	0.5743	0.5626	0.5547

	Madhav Nagar, PO : Cement Factory, Chanderia - 312021 DISTT. : Chittorgarh , Rajasthan					
43.	ACC Ltd. (Kymore Cement Ltd.),P.O. Kaymore TehsilVijraghvegarh Distt. Katni -483 880, Madhya Pradesh	CMTOE043MP	4675397	0.5548	0.5429	0.5350
44.	The KCP Limited, Ramakrishnapuram, Muktyala Village, Jaggayyapet Mandal, Distt. Krishna, Andhra Pradesh-521457	CMTOE044AP	3382400	0.5918	0.5799	0.5720
45.	Meghalaya Cements Ltd.,Thangskai Village P.O. Lumshnong Distt. Jaintia Hills-793200, Meghalaya	CMTOE045ML	1266649	0.5931	0.5811	0.5731
46.	Orient Cement Limited, Devapur, Dist. Adilabad- 504218, Telanagana	CMTOE046TG	4015601	0.5871	0.5748	0.5667
47.	Penna Cement Industries Ltd. Nalgonda,Vill. Ganeshpahad Post:- Wadapally, Distt. Nalgonda, Telanagana-508355	CMTOE047TG	752289	0.6053	0.5928	0.5845
48.	Manikgarh Cement Works II, UltraTech Cement Limited, Gadchandur, Distt. Chandrapur, Maharashtra-442908	CMTOE048MH	4770977	0.5873	0.5748	0.5664
49.	Star Cement Limited (Previously known as Cement Manufacturing Company Limited), Lumshnong, P.O. Khaliehriat Distt: Jaintia Hills, Meghalaya 793210	CMTOE049ML	1339254	0.5887	0.5762	0.5678
50.	Penna Cement Industries Ltd., Anantpur, Talaricheruvu mandal anantpur , Andhra Pradesh-515415	CMTOE050AP	697110	0.6088	0.5962	0.5878
51.	The India Cements Ltd., Sankari, West, Salem - 637 303, , Tamil Nadu	CMTOE051TN	831193	0.5570	0.5443	0.5359
52.	Zuari Cement Limited , Sitapuram Works, Dondapadu, Telangana	CMTOE052TG	927668	0.5831	0.5703	0.5618
53.	Ambuja Cement Ltd. Rabriyawas,Teh: Jaitaran, Dist: Pali- 306709, Rajasthan	CMTOE053RJ	2229771	0.6244	0.6116	0.6030
54.	UltraTech Cement Ltd- Sidhi Cement Works, Village - Majhigawan, P.O. Bharatpur, Tehsil-Rampur Naikin, Distt.Sidhi, Madhya Pradesh-486776	CMTOE054MP	4473158	0.5815	0.5687	0.5601
55.	Deccan Cements, Bhavanipuram, Janpahad, Distt. Nalagonda, Telangana-508218	CMTOE055TG	2116986	0.6027	0.5897	0.5811
56.	Ultratech Cement Limited, Awarpur Cement Works, Tal-Korpana Village- Awarpur District Chandrapur, Maharashtra-442917	CMTOE056MH	4895238	0.5963	0.5828	0.5738
57.	UltraTech Cement Limited, Unit: Maihar Cement Unit-2', Satna,Post-Sarlangar Maihar Dist- satna , Madhya Pradesh-485772	CMTOE057MP	2425569	0.6047	0.5906	0.5811
58.	The India Cements Ltd., Dalavoi,Cement nagar-621 730, Sendurai (t.k.), ariyalur (d.t), Tamil Nadu	CMTOE058TN	1688705	0.6229	0.6087	0.5992
59.	ACC Ltd. (Wadi Cement Works),Wadi Distt.-Gulbarga , Karnataka. Pin:-585225	CMTOE059KA	6427775	0.6007	0.5865	0.5770
60.	The India Cements Ltd, Yerraguntla,Yerraguntla Works, Yerraguntla - 516309 , Andhra Pradesh	CMTOE060AP	596503	0.5767	0.5622	0.5525
61.	Chettinad Cement Corporation Ltd., Dindigul,Rani Meyammai Nagar, Karikkali Post,Guziliamparai (VIA),Dindigul Distt.PIN:624703 , Tamil Nadu	CMTOE061TN	3800515	0.5936	0.5791	0.5694
62.	Kesoram Cement (Prop. Kesoram Industries Ltd.),Basantnagar P.O., Dist. Karimnagar, Telangana-505187	CMTOE062TG	1414107	0.6025	0.5877	0.5779
63.	ACC Ltd. (Chanda Cement Works),PO. Cementnagar Dist Chandurpur 442502, Maharashtra	CMTOE063MH	3454741	0.5967	0.5819	0.5720
64.	UltraTech Cement Limited, Unit: Maihar Cement, Satna,Post-sarlangar maihar Dist- satna , Madhya Pradesh-485772	CMTOE064MP	2258496	0.6471	0.6319	0.6217
65.	The Ramco cements limited, Govidapuram works, Ariyalur, Tamil Nadu	CMTOE065TN	4145715	0.7084	0.6923	0.6816
66.	The Ramco Cements Limited, Ramasamy Raja Nagar, Virudhunagar District, Tamil Nadu,	CMTOE066TN	2540546	0.7152	0.6987	0.6876

	626204					
67.	Chettinad Cement Corporation Private Limited, Puliur-Works, Tamil Nadu	CMTOE067TN	419412	0.6267	0.6099	0.5986
68.	The Ramco Cement Limited (Alathiyur Work), Alathiyur Work, Cement Nagar, Sendurai Taluk, Ariyalur, Pondichery, Chennai - 621730, Tamil Nadu	CMTOE068TN	2916588	0.7058	0.6888	0.6775
69.	The India Cements Limited, Sankarnagar, Tirunelveli District, Tamil Nadu -627 357	CMTOE069TN	964184	0.6336	0.6162	0.6046
70.	Ambuja Cement Ltd (Maratha Cement Works), Village: Upparwahi, Taluka:Korpana, Distt: Chandrapur - 442908, Maharashtra	CMTOE070MH	3917932	0.5938	0.5761	0.5643
71.	Goldstone Cements Limited, Village: Mushiang Lamare (Old), Post Office: Khliehariat, District: East Jaintia Hill, Meghalaya- 793200	CMTOE071ML	923349	0.6516	0.6336	0.6216
72.	Malabar Cement Ltd. Palakkad, Walayar, Palakkad, Kerala - 678624, Kerala	CMTOE072KL	408107	0.6809	0.6608	0.6474
73.	KJS Cement(I) Limited, Works: - NH-7, Raj Nagar, Rewa Road, Village-Amilia, Post Office: Maihar, District Satna, Madhya Pradesh-485771	CMTOE073MP	2867679	0.7117	0.6867	0.6700
74.	DCM Shriram Consolidated Ltd., Kota, Shriram nagar Distt. Kota, Rajasthan- 324004	CMTOE074RJ	453502	0.7105	0.6821	0.6632
Sub sector - Ordinary Portland Cement						
75.	Sree Jaya Jothi Cement, Yanakandla Village, Banaganapalli (Mandal) Kurnool, Andhra Pradesh-518124	CMTOE075AP	1964528	0.7449	0.7355	0.7292
76.	JK Cement Works Mangrol (A unit of JK Cement Ltd.), C/o Kailash Nagar, Nimbahera-312617, Distt. Chittorgarh, Rajasthan	CMTOE076RJ	5677845	0.7358	0.7254	0.7184
77.	Bharathi Cement Corporation Private Limited, Village: Nallalingayapalli, Post Office: Kamalapuram, District. YSR Kadapa. Andhra Pradesh-516289	CMTOE077AP	3666167	0.7696	0.7590	0.7519
78.	Orient Cement Limited, Chittapur, P.O. Itga, District Kalaburgi, Karnataka - 585211	CMTOE078KA	2397993	0.7713	0.7598	0.7521
79.	Ultratech Cement Ltd. (Aditya Cement Works), Adityapuram Sawa - Shambhupura Road Dist. Chittorgarh- 312613	CMTOE079CG	7723705	0.7809	0.7685	0.7602
80.	JSW Cement, Bilakalagudur Village, P.O. Gadivemula Mandal, Distt. Kurnool, Andhra Pradesh-518508	CMTOE080AP	2558098	0.7689	0.7565	0.7482
81.	Wonder Cement, RK Nagar, Nimbahera, Chittorgarh Rajasthan-516311	CMTOE081RJ	10585675	0.8051	0.7926	0.7842
82.	JK Lakshmi Cement Ltd., Sirohi, P.O. Jaykaypuram distt. Sirohi, Rajasthan- 307019	CMTOE082RJ	5506560	0.7925	0.7791	0.7702
83.	Parasakti Cement Industries Limited, Village: Jettipalem, Post Office: Jettipalem, District: Guntur, Andhra Pradesh-522421	CMTOE083AP	1073920	0.7556	0.7420	0.7329
84.	Shree Cement Ltd. Ras, Bangur City RAS, Tehsil Jaitaran-306107, Dist: Pali, Rajasthan	CMTOE084RJ	12716265	0.7914	0.7778	0.7687
85.	Ultratech Cement Ltd. (Kotputli cement Works), V& P. O. Mohanpura, Tehsil: Kotputli Dist. Jaipur, PIN-303108, Rajasthan,	CMTOE085RJ	3666138	0.8086	0.7950	0.7859
86.	Zuari Cement, Yerraguntla, P.O. Krishnanagar, Distt. YSR Kadapa, Andhra Pradesh-516311	CMTOE086AP	3331231	0.8075	0.7933	0.7838
87.	Ultra Tech Cement Ltd (Naramada Cement), P.B.no.10, babarkot Village, Pincode: 365540, Dist: Amreli, Gujarat	CMTOE087GJ	1400465	0.7992	0.7845	0.7747
88.	Sri Chakra Cement Limited. Village: Srinarsimhapuri, Karempudi, Guntur District, Post Office: Karampudi Andhra Pradesh-522614	CMTOE088AP	498960	0.8198	0.8048	0.7948
89.	Ultratech Cement Ltd (Gujrat Cement Ltd.), Village: Kovaya, Taluka: Rajula City, Dist. Amreli- 365 541, Gujarat	CMTOE089GJ	4650295	0.8255	0.8103	0.8001
90.	The KCP Ltd., Cement unit- 1 Macherla, Macherla-522426, Dist. Guntur, Andhra Pradesh	CMTOE090AP	536488	0.8466	0.8312	0.8210
91.	UltraTech Cement Limited - Bela Cement	CMTOE091MP	1917350	0.8351	0.8196	0.8093

	Works. P.o. Jaypeenagar Distt. Rewa , Madhya Pradesh-486450					
92.	Vasavadatta Cement, Gulbaraga,Sedam-585222 Gulbaraga Distt. , Karnataka	CMTOE092KA	5422767	0.8391	0.8232	0.8127
93.	Chettinad cement corporation Private Ltd , Kallur Works, Kallur-Sangam-K, Garagapalli, Gulbarga -585305, Gulbarga Dt, Karnataka	CMTOE093KA	2039429	0.8277	0.8116	0.8008
94.	Sagar Cements, Limited, Matampally (V&M), Suryapet Distri ct, Telangana-508204	CMTOE094TG	2217633	0.8430	0.8268	0.8160
95.	My Home Industries Ltd., Nalgonda,Mellacheruvu-508246 Nalgonda Distt., Telangana	CMTOE095TG	3125768	0.8332	0.8170	0.8062
96.	Kalburgi Cement Private Limited, Village: Chatrasal, Post Office: Chinkcholi Taluk, Districts: Kalaburgi, Karnataka-585320	CMTOE096KA	2902593	0.8491	0.8327	0.8217
97.	The India Cement Ltd., Malkapur Works, SY No.- 51, Malkapur Village Malkapur, Post-Tandur, Rangareddy Distt. - 501157, Telangana	CMTOE097TG	1559199	0.7935	0.7770	0.7660
98.	The India Cement Ltd., Chilamkur,Chilamkur Post, Kadapa Dist- 516310, Andhra Pradesh	CMTOE098AP	1293703	0.8238	0.8068	0.7954
99.	Penna Cement Industries Limited, Boyareddypalli ,Boyareddypalli, Yadiki Mandal, Anantapur DistT., Pincode : 515408, Andhra Pradesh	CMTOE099AP	854483	0.8626	0.8455	0.8342
100.	Saurashtra Cement Limited, Unit- Sidheegram, Gujarat., Junagarh,Sidheegram Veraval-Kodinar Highway Distt. Gir Somnath , Gujarat-362275	CMTOE100GJ	1409441	0.8608	0.8435	0.8320
101.	Nuvoco Vistas Corp. Ltd. (formerly Lafarge India Limited) Chittor Cement Works, Bhawalia, Chittorgarh, Rajasthan-321620	CMTOE101RJ	2329730	0.8558	0.8385	0.8269
102.	NCL Industries Limited, Simhapuri, Mattapalli, Dist. Suryapet, Telanagana,	CMTOE102TG	2405161	0.8596	0.8421	0.8305
103.	The Ramco Cements Limited, Kumarasamy Raja Nagar, Krishna District, Andhra Pradesh, 521457	CMTOE103AP	4439110	0.8698	0.8522	0.8404
104.	Keerthi Industries Limited, Mellacheruvu, Suryapet Telangana-508246	CMTOE104TG	404478	0.8778	-	0.8482
105.	Bhavya Cement Private Limited, P.O. Tangeda, Distt: Guntur, Andhra Pradesh-522414	CMTOE105AP	611663	0.8558	0.8377	0.8256
106.	Ultratech Sewagram, P.O .Vayor, Distt: Kutchh (Bhuj) Gujarat-370511	CMTOE106GJ	2030379	0.8408	0.8225	0.8103
107.	Penna Cement Industries Limited, Belkatur, Tandur, Vikarabad, Telangana-501158	CMTOE107TG	499755	0.8560	0.8373	0.8249
108.	The India Cements Ltd., Vishnupuram,Vishnupuram , wadapally post, Distt.- Nalgonda -508355, Telangana	CMTOE108TG	1098257	0.8532	0.8332	0.8198
109.	Nuvoco Vistas Corp. Ltd. (formerly Lafarge India Limited) (Sonadih Cement Plant) ,PO - Raseda, Via - Balodabazar, Dist - Raipur, Pin - 493332 , Chattisgarh	CMTOE109CG	3057103	0.8696	0.8489	0.8351
110.	Anjani Portland Cement Ltd. Anjanipuram,Distt. Nalagonda, Telangana- 508246	CMTOE110TG	792958	0.8931	0.8716	0.8574
111.	Ambuja Cement Ltd. Ambujanagar,P.O Ambujanagar, Tal-Kodinar, Dist-Junagadh, Pin-362715 , Gujarat	CMTOE111GJ	3154665	0.9121	0.8890	0.8736
112.	Chettinad Cement Corporation Private Limited, Ariyalur Works,Trichy Main Road, Keelapalur, Ariyalur - 621707 Tamil Nadu	CMTOE112TN	1556219	0.9031	0.8800	0.8646
113.	Green Valliey Industries Limited, Nongsing, Chiehruphi, East Jaintia Hills, Meghalaya-793210	CMTOE113ML	543540	1.0121	0.9888	0.9732
114.	Ambuja cement ltd., Suli,P.O. Darlaghat Tehsil Arki Distt. Solan-171102 , Himachal Pradesh	CMTOE114HP	3045481	0.7520	0.7279	0.7118
115.	Saurashtra Cement Ltd., Ranavav, Near Railway Station, RANAVAV - 360560, Dist - PORBANDAR, Gujarat	CMTOE115GJ	1478510	0.9258	0.9017	0.8856
116.	Manikgarh Cement Works, UltraTech Cement	CMTOE116MH	1329947	0.9754	0.9467	0.9275

	Limited, P.O.Gadchandur, Distt.Chandrapur, Maharashtra-442908					
117.	Sanghi Industries Ltd., Kutch, P.O.Sanghipuram, TA-Abdasa Dist- Kutch, Gujarat-370511	CMTOE117GJ	1541976	0.9707	0.9413	0.9217
118.	Cement Corporation Of India Ltd, Tandur Cement Factory, Karankote, Rangareddy, Telangana- 501158	CMTOE118TG	594457	1.0803	1.0368	1.0079
119.	Tata Chemicals Limited, Mithapur, Mithapur361345, Dist: Jamanagar, Gujarat	CMTOE119GJ	319686	1.1058	1.0553	1.0216
Sub-sector -Composite						
120.	Ultratech Cement Ltd., Rawan Cement Works., Distt. Raipur, Chattisgarh-493196	CMTOE120CG	14635552	0.3191	0.3142	0.3110
121.	ACC Ltd., (Jamul Cement Works), P.O. Jamul Cement Works District Durg Pin-490024, Chattisgarh	CMTOE121CG	8464317	0.3459	0.3402	0.3364
122.	Dalmia Cement (Bharat) Limited, Rajgangpur, Dist: Sundergarh, Pin: 770017, Odisha	CMTOE122OD	7406765	0.5137	0.5027	0.4953
123.	Ultratech Cement Limited Unit- Baikunth Cement Works, Baikunth, Dist. Raipur- 493116, Chattisgarh.	CMTOE123CG	2609926	0.4244	0.4117	0.4033
124.	ACC Ltd., (Bargarh Cement Works), Cement Nagar, PO- Bardol, Dist. Bargarh -768038, Odisha	CMTOE124OD	1208919	0.4893	0.4671	0.4523
Sub-sector – Clinkerization						
125.	Star Cement Meghalaya Limited, Lumshnong, Khaliehriat, Jaintia Hills, Meghalaya-793210	CMTOE125ML	2044915	0.7748	0.7654	0.7592
126.	Calcom Cement India Limited, 16 Kilo, Umrangshu, Jamuna Nagar, Dima Hasao (NC Hills) Assam-788931	CMTOE126AS	1237400	0.7947	0.7838	0.7765
127.	Ambuja Cement Limited, Teh. Arki, P.O. Darlaghat, Distt. Solan, Himachal Pradesh-171102	CMTOE127HP	2565858	0.8343	0.8198	0.8102
128.	Diamond Cement Prop. Heidelberg Cement, Damoh, Village Narsingarh Dist.- Damoh, Madhya Pradesh-470675	CMTOE128MP	3017866	0.8696	0.8516	0.8396
Sub sector – White Cement						
129.	JK White Cement, Nagaur, PO. Gotan- 342902 Dist.- Nagaur, Rajasthan	CMTOE129RJ	650,932	0.8743	0.8574	0.8461
130.	Ultratech Cement Ltd., Unit- Birla White, D-7 Shastri Nagar Jodhpur 342003, Rajasthan	CMTOE130RJ	638,765	0.9809	0.9583	0.9432
Sub sector – Grinding						
131.	Ginigera Cement Works, UltraTech cement Limited, Ginnigera Village, Koppal, Karanataka-583228	CGUOE001KA	1,557,427	0.0028	-	0.0028
132.	Orient Cement Jalgaon, P.O. Nashirabad, District Jalgaon, Maharashtra, 425329	CGUOE002MH	1,437,916	0.0086	0.0086	0.0085
133.	J K Cement Works, Satha, Kasimpur, Aligarh, Uttar Pradesh-202127	CGUOE003UP	1,230,254	0.0115	-	0.0113
134.	Ultratech Cement Limited, Nagpur Grinding Unit Village- Tara Ashti Navegaon, Tehsil- Mouda Dsitt. Nagpur, Maharashtra-441106	CGUOE004MH	1,401,135	0.0126	-	0.0124
135.	RCCPL Pvt. Ltd. (Formerly Reliance Cement Co. Pvt. Ltd.) Kundanganj, Rae Bareli, Uttar Pradesh- 202127	CGUOE005UP	2,787,464	0.0128	-	0.0125
136.	Ambuja Cements Limited, Dadri, Village Dhoom Manikapur, P.O. Dadri, District, Gautam Buddha Nagar -203207	CGUOE006UP	1,929,850	0.0139	0.0137	0.0136
137.	M/s. Wonder Cement Limited Unit Jhajjar, Sahalawas, Tehsil- matanhail, Dist-Jhajjar Haryana-124146	CGUOE007HR	2,934,833	0.0159	-	0.0155
138.	UltraTech Cement Ltd., Unit:- Jhajjar Cement Works, Village Jharli, Tah:- Matanhel P.O. Jharli, District Jhajjar, Haryana 124106	CGUOE008HR	2,187,031	0.0159	0.0157	0.0155
139.	Diamond Cements, Prop: Heidelberg Cement India Limited, Madora Village, P.O. Barta	CGUOE009UP	2,706,941	0.0169	0.0166	0.0164

	Kalan, Jhansi, U.P.-284121	District					
140.	JK Cement P.O. Jharli District Jhajjar, Haryana 124106	Jharli,	CGUOE010HR	1,626,580	0.0171	0.0168	0.0166
141.	Ultratech Cement Ltd Unit Bathinda Cement Works, Village Lehra Mohabbat, District Bathinda, 151111	District Punjab	CGUOE011PB	1,661,535	0.0173	0.0170	0.0168
142.	Ultra Tech Cement Limited-Hotgi Cement Works, P.O. Hotgi, District Solapur, Maharashtra 413215	District Solapur,	CGUOE012MH	2,918,900	0.0178	0.0175	0.0173
143.	Suratgarh Grinding Unit Shree Cement Limited, Udaspur, Suratgarh Distt. Shri Ganganagar, Rajasthan-335804	District Solapur,	CGUOE013RJ	3,178,059	0.0182	-	0.0177
144.	Star Cement Limited, Guwahati Grinding Unit, Village Champta Pathar, P.O. Sonapur, District Kamrup (M), Assam 782402	District Kamrup (M), Assam	CGUOE014AS	2,066,619	0.0182	0.0179	0.0177
145.	Ultratech Cement Limited (Unit: Roorkee Cement Works), Puhana Iqbalpur Road, Nalheri, Dehviran Village, PO: Nalheda Anantpur, Roorkee, Haridwar District Uttarakhand - 247668	District Uttarakhand -	CGUOE015UK	1,537,182	0.0193	0.0190	0.0187
146.	ACC Limited- Thondebhavi Cement Works, P.O. Thondebhavi District Chikballapur, Karnataka, 561203	District Chikballapur,	CGUOE016KA	2,020,290	0.0197	0.0193	0.0190
147.	Mejia Cement Limited Nuvoco Vista Corp. Ltd. Amdanga, Bankura, Durgapur, West Bengal-722813	District Chikballapur,	CGUOE017WB	1,421,803	0.0200	-	0.0193
148.	Shree Cement Limited (Unit : Bihar Cement Plant), Aurangabad, Village Aurangabad, P.O. Aurangabad, Bihar, 824101	District Aurangabad,	CGUOE018BR	3,352,630	0.0207	0.0202	0.0199
149.	Ultratech Cement Limited (Unit: Bagheri Cement Works), Village Pandiyana, P.O. Bagheri, District Solan, Himachal Pradesh 174101	District Solan,	CGUOE019HP	1,699,039	0.0208	0.0203	0.0200
150.	UltraTech Cement Limited, Jharsuguda Cement Works, P.O. Arda, District Jharsuguda, Odisha-768202	District Jharsuguda,	CGUOE020OD	3,021,872	0.0208	0.0204	0.0201
151.	Ambuja Cements Limited, Nalagarh JAJHRA, Nalagarh Solan, Himachal Pradesh-174101	District Solan,	CGUOE021HP	1,536,323	0.0210	-	0.0202
152.	Dalmia Cement East Ltd (Formerly Known As Bokaro Jaypee Cement Ltd), Bokaro Steel City, Balidih, Bokaro, Jharkhand, 827014	District Bokaro,	CGUOE022JH	3,072,183	0.0217	0.0212	0.0209
153.	Shree Cement Limited, Bulandshahr Grinding Unit, 12 UPSIDC, Industrial Area, P.O. Sikandrabad, District Bulandshahr, Uttar Pradesh-203205	District Bulandshahr,	CGUOE023UP	2,004,899	0.0218	0.0213	0.0210
154.	Ambuja Cement Limited, Ropar, Vill.-Doburji P.O. Lodhimajra Distt. Ropar, Punjab - 140113	District Ropar,	CGUOE024PB	3,846,091	0.0220	0.0215	0.0212
155.	Ambuja Cements Limited Sankrail, Village Jaladhulagori P.O. Dhulagori, District Howrah, West Bengal 711302	District Howrah,	CGUOE025WB	2,638,809	0.0223	0.0218	0.0214
156.	West Bengal Cement Works, UltraTech Cement Ltd. Rajbandh Bardhaman West Bengal-713212	District Bardhaman,	CGUOE026WB	1,116,774	0.0231	-	0.0222
157.	Shree Cement Limited, Khushkhera Grinding Unit, Plot No. SP 3(11)/A1, RIICO Industrial Area, Khushkhera, P.O. Maheshra, District Alwar, Rajasthan-301707	District Alwar,	CGUOE027RJ	2,659,026	0.0231	0.0226	0.0222
158.	Ambuja Cement Ltd. Farakka, Srimantapur, Murshidabad, West Bengal- 742212	District Murshidabad,	CGUOE028WB	1,441,016	0.0237	-	0.0227
159.	M/s. JK Lakshmi Cement Limited Grinding Unit, Bajitpue, Jhamri	District Jhamri	CGUOE029HR	1,059,100	0.0239	-	0.0229

	Jhajjar, Haryana-124142					
160.	Heidelberg Cement (I) Ltd., Damoh, Madhya Pradesh - 470661	CGUOE030MP	1,636,298	0.0241	0.0235	0.0231
161.	M/s Ultratech Nathdwara Cement Ltd, Unit: Neem Ka Thana Cement Works, Sirohi, Neem Ka Thana Sikar, Rajasthan-332714	CGUOE031RJ	1,274,359	0.0245	-	0.0234
162.	Shree Jharkhand Cement Plant (A unit of Shree Cement Limited) Hansda, Burudih, Seraikela - Kharsawan, Jharkhand-833220	CGUOE032JH	2,397,521	0.0250	-	0.0239
163.	Ultratech Cement Limited Sonar Bangla Grinding Unit, Dhalo Village, PO Gankar, PS Raghunathaganj - Murshidabad, West Bengal - 742227	CGUOE033WB	2,580,937	0.0253	0.0247	0.0242
164.	Ultratech Cement Wanakbori Grinding Unit, Nr. TPS, Sangol Village, P.O. Sonipur, Sangol 388239, Kheda, Gujarat	CGUOE034GJ	2,343,627	0.0274	0.0266	0.0261
165.	Calcom Cement India Limited Lanka, Village 2 No. Pipal Pukhuri, P.O. Lanka, District, Hojai, Assam, 782446	CGUOE035AS	1,908,069	0.0276	0.0268	0.0263
166.	Ultratech Cement Limited Dankuni, Hooghly, West Bengal-712306	CGUOE036WB	2,299,152	0.0296	-	0.0281
167.	Durga HiTech Cement, A unit of Birla Corporation, Durgapur, West Bengal- 713301	CGUOE037WB	825,818	0.0316	-	0.0299
168.	Kudithini Cement Works, Kudithini, Bellary, Karnataka- 583115	CGUOE038KA	1,169,127	0.0323	0.0312	0.0305
169.	The Ramco Cements Limited, Raksachak, Kolaghat, East Medinipur, West Bengal- 721134	CGUOE039WB	1,513,204	0.0339	-	0.0319
170.	My Home Industries Private Limited , Mulakalapalli Grinding Plant, Mulakalapalli Village, Yellamanchili (M) , Visakhapatnam Dist - 531055, Andhra Pradesh	CGUOE040AP	1,514,881	0.0347	0.0334	0.0326
171.	The Ramco Cements Limited, Gobburupalem, Visakhapatnam, Andhra Pradesh-531055	CGUOE041AP	1,853,913	0.0354	-	0.0332
172.	Ultratech Cement Limited, Patliputra Cement, Village Shahjahanpur, P.O. Shahjahanpur, District Patna, Bihar, 801305	CGUOE042BR	3,644,388	0.0355	0.0342	0.0334
173.	Emami Cement Limited, Panagarh Grinding Unit, Panagrah Industrial park WBIDC, P.O. Kotagram, District Purba Bardhaman, West Bengal-713148	CGUOE043WB	2,082,352	0.0357	0.0343	0.0335
174.	ACC Limited, Tikaria Cement Works, Gauriganj District, Chhatrapati Shahuji Maharaj Nagar, Uttar Pradesh-227409	CGUOE044UP	3,940,086	0.0363	0.0349	0.0340
175.	Kapilas Cement Manufatcuring Works, Village Biswali, P.O. Barunia, District Cuttack, Odisha 754082	CGUOE045OD	2,840,336	0.0368	0.0354	0.0345
176.	M/s Bara Cement Works, A Unit of Ultratech Cement Ltd. Lohgara, Tehsil- Bara, Parayagraj, Uttar Pradesh -212107	CGUOE046UP	2,420,442	0.0387	-	0.0361
177.	Bengal Cement Works (Unit of Dalmia Cement (Bharat) Limited) Village Kulapachuria, P.O. Beuncha, District West Midnapur, West Bengal 721129	CGUOE047WB	2,283,939	0.0436	0.0417	0.0403
178.	M/S JSW Cement Ltd Kalinga Nagar, Industrial Area, Jajpur, Odisha-755026	CGUOE048OD	720,570	0.0439	-	0.0406
179.	NU Vista Limited (Formerly Emami Cement Limited) Kalinga Nagar, Industrial Complex, Jajpur, Odisha-755026	CGUOE049OD	618,373	0.0458	-	0.0422
180.	ACC Limited - Sindri Cement Works, P.O. Sindri, District Dhanbad, Jharkhand 828124	CGUOE050JH	3,769,042	0.0475	0.0451	0.0436

181.	Durgapur Cement Works (Unit of Birla Corporation Ltd.), P.O. Durgapur, District Paschim Burdwan, West Bengal- 713301	CGUOE051WB	962,304	0.0479	0.0455	0.0439
182.	Shree Cement Limited, Roorkee Grinding Unit, Village-Akbarpur Oud, Tehsil Laksar, District. Haridwar, Uttarakhand -247663	CGUOE052UK	721,193	0.0558	0.0526	0.0504
183.	Jojobera Cement Plant, Nuvoco Vistas Corporation Limitd , Jamshedpur, Rahargora, Singhbhoom (East), Jharkhand-831016	CGUOE053JH	6,403,206	0.0659	0.0614	0.0584
184.	JSWCL Salboni, Vill Jambedia, P.O. Sayedpur via Salboni, District, West Midnipur, West Bengal-721306	CGUOE054WB	1,777,990	0.0745	0.0688	0.0649
185.	ACC Ltd., (Chaibasa), Chaibasa Jinkpani Dist. Singhbhoom-833 215, Jharkhand	CGUOE055JH	724,759	0.1272	0.1104	0.0993
186.	JSW Cement Limited, Vijaynagar Works, Bellary Unit, P.O. Vijaynagar, District Bellary, Karnataka- 583275	CGUOE056KA	1,605,651	0.1480	0.1254	0.1102

S. No.	Obligated Entity		Baseline Equivalent Major Product Output 2023-24	Baseline GHG Emission Intensity 2023-24	GHG Emission Intensity Target	
					(5)	
(1)	(2)		(3)	(4)	Compliance Year 2025-26	Compliance Year 2026-27
	Name, Address and State	Registration Number	(Tonne)	(tCO ₂ equivalent /Tonne of equivalent product)	(tCO ₂ equivalent / Tonne of equivalent product)	
Sector – Chlor-Alkali						
1.	Atul Ltd, Atul , Valsad, 396020, Gujarat	CNAOE001GJ	33632	2.2369	2.1665	2.0609
2.	Bodal Chemicals Ltd Unit XII (A unit of Bodal chemicals Limited), Village Khadauli, Sardargarh, P.B. No: 52, Rajpura, Dist. Patiala, Punjab	CNAOE002PB	85649	1.6797	1.6250	1.5428
3.	Chemfab Alkalis Limited, Kalapet- 605014, Puducherry	CNAOE003PY	56492	1.6657	1.6119	1.5311
4.	Chemplast Sanmar Limited, Melavanjore, Karaikal Region, U.T. of Puducherry	CNAOE004PY	43893	1.3983	1.3708	1.3295
5.	Chemplast Sanmar Ltd., Veerakkalpudur, Raman Nagar Post, Mettur Dam, Salem District-636403, Tamil Nadu	CNAOE005TN	61698	3.0520	2.9210	2.7244
6.	DCM Shriram Consolidated Ltd (Shriram Vinyl & Chemical Industries), Chlor Alkali Plant, Shriram Nagar, Kota - 324004, Rajasthan	CNAOE006RJ	212580	1.9371	1.8844	1.8052
7.	DCW Ltd., Sahupuram, Tutucorin District, 628229, Tamil Nadu	CNAOE007TN	74760	2.3870	2.3068	2.1866
8.	Epigral Limited, Plot No: CH 1 & 2; Dahej Industrial Estate, Dahej, Bharuch-392130, Gujarat	CNAOE008GJ	345888	2.5750	2.4817	2.3418
9.	Grasim Industries Limited-	CNAOE009JH	198941	2.8134	2.7021	2.5350

	Chemical Division-Rehla, Garhwa Road, PO: Rehla, Dist. Palamau, 822124, Jharkhand					
10.	Grasim Industries Limited, Unit: Indian Rayon, Caustic & Power Plant, Veraval, Dist. Junagarh - 362266, Gujarat	CNAOE010GJ	94790	2.5566	2.4647	2.3268
11.	Grasim Industries Limited, Chemical Division Karwar, Binaga Karwar, Uttar Kannada-581307, Karnataka	CNAOE011KA	77946	0.4314	0.4314	0.4314
12.	Grasim Industries Limited, Chemical Division Renukoot P.O. Renukoot, Sonebhadar, Uttar Pradesh	CNAOE012UP	147479	3.0023	2.8755	2.6853
13.	Grasim Industries Limited, Chemical Division-Ganjam, Jayshree, Ganjam - 761025, Odisha	CNAOE013OR	67719	1.5898	1.5407	1.4671
14.	Grasim Industries Limited, Chemical Division-Nagda, Birlagram, NAGDA, 456331, Madhya Pradesh	CNAOE014MP	268017	1.6981	1.6413	1.5561
15.	Grasim Industries Limited, Chemical Division-Vilayat, Plot No. 1, GIDC, Vilayat, Taluka: Vagra, Dist: Bharuch - 392140, Gujarat	CNAOE015GJ	390681	1.2159	1.1951	1.1639
16.	Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd., At & PO: Dahej, Taluka: Vagara, Dist. Bharuch, 392130, Gujarat	CNAOE016GJ	384610	1.3182	1.2937	1.2571
17.	Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd., P.O. Petrochemicals, Dist. Vadodara, 391346, Gujarat	CNAOE017GJ	251354	1.1966	1.1689	1.1272
18.	Gujarat Fluorochemicals Ltd., Plot No: 12/A, Dahej GIDC Complex, Vagra, Bharuch - 392130, Gujarat	CNAOE018GJ	152246	2.0837	2.0226	1.9310
19.	Kutch Chemical Industries Limited, Varasana, Padana, Kutch, 370201, Gujarat	CNAOE019GJ	155580	1.9748	-	1.8376
20.	Lords Chloro Alkali Ltd., SP - 460, Matsya Industrial Area, Alwar, 301030, Rajasthan	CNAOE020RJ	70616	1.7962	1.7336	1.6396
21.	Nirma Ltd., Chemical Complex, Village: Kalatalav, Taluka & Dist., Bhavnagar - 364313, Gujarat	CNAOE021GJ	239648	1.8940	1.8436	1.7679
22.	Orient Paper Mills (CSU), Prop: Orient Paper & Industries Ltd., Bargawan Amlai, P.O. Amlai Paper Mills, Anuppur-484117, Madhya Pradesh	CNAOE022MP	38561	3.2213	3.0753	2.8563
23.	Primo Chemicals Limited (Formerly known as Punjab Alkalies & Chemicals Limited), Nangal Una Road,	CNAOE023PB	130762	1.6170	1.5663	1.4902

	Naya Nangal, Dist. Ropar-140126 Punjab					
24.	Reliance Industries Ltd., Manufacturing Division, Dahej, Vagra, Bharuch - 392130, Gujarat	CNAOE024GJ	182582	1.7486	1.7056	1.6411
25.	Shriram Alkali & Chemicals, 749, GIDC Industrial Estate, Jhagadia, Dist. Bharuch-393110, Gujarat	CNAOE025GJ	462646	2.3728	2.2936	2.1748
26.	Tamilnadu Petro Products Limited, Manali Express Highway, Chennai-68	CNAOE026TN	42147	0.8377	0.8241	0.8036
27.	TGV SRAAC Limited., Gondiparla, Kurnool-518004, Andhra Pradesh	CNAOE027AP	301121	1.5974	1.5615	1.5077
28.	The Andhra Sugar Ltd, Chemical & Fertilizer Division., Saggonda Village, Dondapudi, West Godavari, 534318, Andhra Pradesh	CNAOE028AP	174665	2.5331	2.4429	2.3075
29.	The Travancore Cochin Chemicals Ltd., Udyogamandal, Ernakulam, Kochi - 683501, Kerala	CNAOE029KL	77141	1.9144	1.8433	1.7366
30.	United Phosphorus Ltd., 750 G.I.D.C., P.B. No. 9, Jhagadia, Bharuch-393110, Gujarat	CNAOE030GJ	41719	0.9386	0.9262	0.9076

S. No.	Obligated Entity		Baseline Equivalent Major Product Output 2023-24	Baseline GHG Emission Intensity 2023-24	GHG Emission Intensity Target	
					(5)	
					Compliance Year 2025-26	Compliance Year 2026-27
(1)	(2)		(3)	(4)	(a)	(b)
	Name, Address and State	Registration Number	(Tonne)	(tCO ₂ equivalent /Tonne of equivalent product)	(tCO ₂ equivalent / Tonne of equivalent product)	
Sector: Pulp & Paper						
Sub-sector: Integrated Plant						
1.	Andhra Paper Limited, 14-6-9, Admin Building, Kateru Road, Sriram Nagar, East Godavari District, Andhra Pradesh-533105	PNPOE001AP	341806	0.4017	0.3988	0.3945
2.	JK PAPER LIMITED, JK Paper Mills (Unit of JKPM Rayagada), P.O. Jaykaypur, Rayagada District, Odisha, PIN - 765017	PNPOE002OD	350528	0.7448	0.7349	0.7201
3.	Naini Papers Limited (Naini Tissues Limited), 7th KM Stone Moradabad Road, Kashipur, Uttarakhand, PIN-244713	PNPOE003UK	121069	0.7875	0.7764	0.7599
4.	ITC Limited - Paperboards & Specialty Papers Division, Unit: Bhadrachalam, Sarapaka,	PNPOE004TS	844413	1.0207	1.0021	0.9743

	Bhadradi Kothagudem District, TELANGANA, PIN - 507128					
5.	BILT GRAPHIC PAPER PRODUCTS LIMITED, PO Ballarpur Paper Mills, Paper Mills Compound, Allapalli Road, Ballarpur, Chandrapur, Maharashtra, PIN - 442901	PNPOE005MH	333857	1.1524	1.1288	1.0933
6.	TamilNadu Newsprint and Papers Limited, Unit-II, Mondipatti, K.Periyapatti, TamilNadu, PIN- 621306	PNPOE006TN	196248	1.2593	1.2310	1.1887
7.	JK Paper Limited, Unit : CPM, P O Central Pulp Mills, Fort Songadh, Dist. Tapi, Gujarat, PIN - 394660	PNPOE007GJ	363533	1.3929	1.3583	1.3065
8.	SESHASAYEE PAPER AND BOARDS LIMITED-UNIT : ERODE, Post Office-Cauvery RS PO, Dist-Namakkal, Tamil Nadu-638007	PNPOE008TN	178439	1.4424	1.4053	1.3498
9.	WEST COAST PAPER MILLS LIMITED, Bangur Nagar, Post Box No. 5, Dandeli 581325, Dist: Uttara Kannada, KARNATAKA	PNPOE009KA	303279	1.4431	1.4060	1.3504
10.	Trident Limited (Formerly known as Abhisek Industries Ltd.), Trident Complex, Mansa Road, Dhaura, Barnala, Punjab-148107	PNPOE010PB	140128	1.4614	1.4233	1.3663
11.	KUANTUM PAPERS LIMITED, Tehsil Garhshankar, Chandigarh Road, Saila Khurd, Hoshiarpur, Punjab, PIN - 144529	PNPOE011PB	153058	1.4925	1.4528	1.3933
12.	Star Paper Mills, Saharanpur, Post office- Paper Mill, Dist-Saharanpur, Uttar Pradesh, PIN-247001	PNPOE012UP	73751	1.8433	1.7828	1.6920
13.	Bindal Papers Mill Ltd, 8th Km Bhopa Road, Muzaffar Nagar, Uttar Pradesh, PIN-251001	PNPOE013UP	96086	1.9456	1.8782	1.7771
14.	Tamilnadu Newsprint P Ltd, Post Office -Kagithapuram, Dist.-Karur, Tamil nadu, PIN- 639136	PNPOE014TN	430874	2.0957	2.0175	1.9002
15.	Sirpur Paper Mills Limited Kaghaznagar, Adilabad, Pin-504296 Andhra Pradesh	PNPOE015TS	122083	2.2517	2.1615	2.0261
16.	K R PULP AND PAPERS LIMITED, Jalalabad Road, Rampura, Shahjahanpur, Uttar Pradesh, PIN-242001	PNPOE016UP	82992	2.3105	2.2154	2.0729
17.	Century Pulp & Paper, (Division: Aditya Birla Real Estate Ltd.), Ghanshyamdham, Lalkua, District Nainital, Uttarakhand, PIN - 262402	PNPOE017UK	422037	2.4676	2.3592	2.1966
18.	Orient Paper and Industries Ltd, P.O. : Amlai Paper Mill, Distt-Shahdol, Madhya Pradesh, PIN - 484117	PNPOE018MP	91450	3.4072	3.2005	2.8904
Sub-Sector: RCF Based Plant						
19.	Sangal Papers Ltd., Vill. Bhainsa, 22 K.M. Stone Meerut Mawana Road, Mawana, Sandhan, Uttar	PNPOE019UP	30746	0.1086	0.1083	0.1078

	Pradesh, PIN- 250401					
20.	Bahl Paper Mills Ltd., 05th KM Stone Aliganj Raod, Kashipur, Uttarakhand, PIN-244713	PNPOE020UK	105396	0.1701	0.1693	0.1682
21.	Dev Priya Paper Pvt. Ltd., 8th km, Village Saini Mawana Road, Saini, Uttar Pardesh, PIN - 250001	PNPOE021UP	60706	0.1854	0.1845	0.1832
22.	Agarwal Duplex Board Mills Ltd., 4 th. km. stone, Bhopa road, Muzaffarnager, Uttar Pradesh, PIN-251001	PNPOE022UP	62822	0.3199	0.3173	0.3134
23.	SIDHARTH PAPERS PRIVATE LIMITED, UNIT-2, 7th KM. Moradabad Road, Kashipur, Udhm Singh Nagar, Uttrakhand, PIN-244713	PNPOE023UK	123545	0.3507	0.3476	0.3428
24.	Shree Bhageshwari Papers Pvt. Ltd., 9TH KM Stone, Bhopa road, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh, PIN-251001	PNPOE024UP	100484	0.4917	0.4855	0.4762
25.	Silvertoan Papers Ltd 9th Km Stone Bhopa Road, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh-251001	PNPOE025UP	116061	0.5338	-	0.5155
26.	Paswara Papers Limited, NH-58, Paswara Border, Mohiuddinpur Delhi Road, Meerut, Uttar Pradesh, PIN- 250002	PNPOE026UP	150067	0.5734	0.5649	0.5523
27.	Shree Venketesh Paper Mills Pvt. Ltd., 16 km Mawana Road, Fitkari, Uttar Pradesh, PIN-250401	PNPOE027UP	64426	0.7408	0.7267	0.7056
28.	Tirthak Paper Mill Pvt Ltd Lilapar Road, Rajkot District, Morbi, Gujarat-363641	PNPOE028GJ	105716	0.8152	-	0.7726
29.	ITC Ltd., PSPD – Division, (Kovai Unit), Vivekanandapuram, Thekkampatty Village, Mettupalayam talk, Coimbatore, Tamilnadu, PIN - 641113	PNPOE029TN	111969	0.8216	0.8043	0.7784
30.	Dev Priya Products Pvt Ltd, Village Saini, 8th Km Mawana road, Meerut, Uttar Pradesh-250002	PNPOE030UP	144963	0.8402	0.8221	0.7949
31.	SIDDHESHWARI INDUSTRIES PRIVATE LIMITED 8.6 km Jansath Road, New Mandi, Uttar Pradesh, PIN - 251001	PNPOE031UP	59842	0.8839	0.8639	0.8338
32.	Maruti Papers Pvt Ltd 8th KM Stone, Village Sikka, Shamli, Uttar Pradesh- 247776	PNPOE032UP	112866	0.9234	-	0.8687
33.	N R Agarwal Industries Limited - Unit 1, 169, GIDC, Phase 2, Valsad, Vapi, Gujarat, Pin - 396195	PNPOE033GJ	112676	0.9338	0.9114	0.8779
34.	Sripathi Paper and Boards Private Limited 88/1,90/2, Sukkiravarpatti, Annaikuttam, Sivakasi, Virudhunagar, Tamil Nadu, PIN -626130	PNPOE034TN	123291	1.0112	0.9850	0.9456
35.	Genus Paper, 8th Km Jansath Road, SIKHERA,	PNPOE035UP	89576	1.0148	0.9884	0.9488

	Muzaffarnagar, Uttar Pradesh, PIN - 251001					
36.	Khanna Paper Mills Limited, NH-3 Bye Pass, Opp. Metro Cash & Carry, Amritsar - 143001, Punjab	PNPOE036PB	438491	1.0390	1.0114	0.9698
37.	Genus Paper and Boards Ltd Agwanpur, Kanth Road, Moradabad, Uttar Pradesh- 244001	PNPOE037UP	98167	1.0766	-	1.0023
38.	Garg Duplex And Paper Mills Pvt Ltd 8.5 Km.Bhopa Road, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh, PIN-251001	PNPOE038UP	40851	1.1318	-	1.0497
39.	Bilt Graphic Paper Products Limited, unit-Bhigwan, 105 milestone ,pune solapur highway, village bhadalwadi ,paundwadi tal indapur, Pune, Maharashtra, pin-413105	PNPOE039MH	277720	1.2049	1.1677	1.1118
40.	South India Paper Plant Limited, Nanjangud, Chikkayana Chatra, Mysore Dist, Karnataka- 571302	PNPOE040KA	69813	1.3288	-	1.2156
41.	Emami Paper Mills Ltd. , Balgopalpur, Post- Rasulpur, Dist- Balasore, Odisha, Pin- 756020	PNPOE0041OD	327977	1.3725	1.3242	1.2518
42.	Dev Priya Industries Pvt. Ltd., 8th km, Saini Mawana Road, Meerut, Ganga Nagar, Uttar Pardesh, PIN-250001	PNPOE042UP	144400	1.4577	1.4032	1.3214
43.	Anand Triplex Board Limited, Saini, Mawana Road, Meerut, Uttar Pradesh, PIN - 250001	PNPOE043UP	33011	1.6021	1.5362	1.4375
44.	N R Agarwal Industries Limited, Unit V, Survey No. 69/1/p3, 72/p3, 92/p2, 93/p2, 94/p1, Sarigram Kale Road, Village: Angam & Sarigram, Valsad, PIN - 396155, Gujarat	PNPOE044GJ	88749	1.6892	1.6160	1.5063
45.	Seshasayee Paper and Boards limited, unit : Tirunelveli, Elanthaikulam, Mukkudal, Tirunelveli District,Tamilnadu, pin - 627601	PNPOE045TN	76978	1.7692	1.6889	1.5685
46.	Silverton Pulp and Papers Pvt Ltd, 9th KM stone, Bhopa Road, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh- 251003	PNPOE046UP	93989	2.2803	-	1.9469
Sub-Sector – Agro Based Plant						
47.	Sainsons Paper Industries Pvt. Ltd., village Bakhli, tehsil- Pehowa, Pehowa, Haryana, Pin - 136128	PNPOE047HR	125415	0.0211	0.0209	0.0206
48.	Satia Industries Ltd , Muktsar Malout road , VPO Rupana , Sri Muktsar sahib , Punjab, pin - 152032	PNPOE048PB	213804	0.0472	0.0463	0.0450
49.	PAKKA LIMITED, Yash Nagar, Darshan Nagar, Ayodhya, Uttar Pradesh, PIN- 224135	PNPOE049UP	56220	0.1034	0.0991	0.0926
50.	Shreyans Industries Limited.	PNPOE050PB	38583	0.1335	0.1263	0.1155

	(Unit: Shree Rishabh Papers), Village - Banah, P.O.: Banah, Balachaur, Punjab, PIN -144522					
51.	Ruchira Papers Ltd, Trilokpur Road, Kala Amb, Sirmaur, Himachal Pradesh, PIN-173030	PNPOE051HP	55257	1.9806	1.8737	1.7133
Sub-Sector: Specialty Paper Plant						
52.	PUDUMJEE PAPER PRODUCTS LTD., Thergaon Road, Thergaon Village, District : Pune, Maharashtra, PIN - 411033	PNPOE052MH	64305	1.7547	1.7080	1.6380
53.	ITC Limited, Paperboards & Specialty Papers Division. Unit Tribeni, Chandrahati, Hoogly, West Bengal, PIN- 712504	PNPOE053WB	50622	2.2907	2.2111	2.0917

Note: The GEI Targets in the current schedule have been calculated as per the methodology described in the Detailed Procedure as published by Bureau.

[F. No. HSM-12/114/2022]

NAMEETA PRASAD, Jt. Secy.